



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 29—जून 4, 2010 (ज्येष्ठ 8, 1932)

No. 22]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 29—JUNE 4, 2010 (JYAISTHA 8, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the  
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

सर्जन ले कमान्डर से सर्जन कमान्डर के पद पर

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 2010

उमेश के दास (एमआर-08265वाई) (75740के), एएमसी, 15 जुलाई

सेना शाखा

2009

सं. 274, दिनांक 29 मई 2010—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों  
की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :--

मेजर जनरल ए एस नरूला

अपर महानिदेशक

स से चि से (मा स)

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर के पद पर

सेना विभाग

येगाडे बाल्मीक श्रीहरी (एमएस-14995ए) (एमआर-08754के),  
एएमसी, 12 अप्रैल 2009

सं. 275, दिनांक 06 मई 2010—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां  
करते हैं :--

संदीप सिंह (एमएस-15033एच) (एमआर-08783वाई), एएमसी,  
12 अप्रैल 2009

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

सिख रेजिमेन्ट

जयन्ता कुमार विश्वास (एमएस-15207एक्स) (एमआर-  
08765डब्ल्यू), एएमसी, 20 जुलाई 2009

सर्जन ले से सर्जन ले कमान्डर के पद पर

सुबेदार मेजर के रैंक में

आभास मिश्रा (एमआर-08066एल) (75842टी), एएमसी,  
30 दिसम्बर 2008

सुबेदार जगतार सिंह (जेसी-498740डब्ल्यू), 01 अगस्त 2009

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार शिवदेव सिंह (जेसी-499811वाई), 14 सितम्बर 2009  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009)

नायब सूबेदार हरदेव सिंह (जेसी-499847एक्स), 13 सितम्बर 2009  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009)

नायब सूबेदार गुरनाम सिंह (जेसी-499852एच), 26 सितम्बर 2009  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009)

## सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) मोहम्मद अबुल कलाम अज़ाद (जेसी-499658एन), 29 सितम्बर 2009

(सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 सितम्बर 2009)

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार रनजीत सिंह (जेसी-498891पी), 01 जुलाई 2009

## सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में

सूबेदार लिपिक गौरी शंकर पटनायक (जेसी-498988ए), 03 सितम्बर 2009

(सूबेदार लिपिक मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 अगस्त 2009)

सूबेदार लिपिक यश पॉल शर्मा (जेसी-498969पी), 22 सितम्बर 2009

(सूबेदार लिपिक मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 सितम्बर 2009)

## सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक अजीत सिंह (जेसी-499527एच), 01 सितम्बर 2009

(सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 जून 2009)

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-499797एक्स), 08 सितम्बर 2009  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 जुलाई 2009)

## मराठा लाईट इन्फैन्ट्री

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार चौगुले लक्ष्मण गोविंद (जेसी-458603पी), 01 मई 2009

सूबेदार मोनेश्री अप्पन्ना उसूलकर (जेसी-458647एम), 01 जून 2009

सूबेदार अर्जुन हनुमंत जनागौड़ा (जेसी-458665पी), 02 जून 2009 \*

\*(सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

सूबेदार हिमायत तुल्ला खान (जेसी-458760एफ), 01 सितम्बर 2009

## सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में

सूबेदार लिपिक कृतांता कुमार घोष (जेसी-458568एक्स), 20 जुलाई 2009 \*

\*(सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार जाधव वसंत नामदेव (जेसी-459488एम), 01 नवम्बर 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सोमशेकरा के एन (जेसी-459401ए), 01 जनवरी 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाती है)

नायब सूबेदार हेमंत कुमार (जेसी-459573पी), 12 अप्रैल 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अहिरे मधुकर जिणु (जेसी-459439के), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार गवली जनार्दन काकाजी (जेसी-459560एक्स), 07 मई 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार गुरव अशोक भास्ती (जेसी-459563एल), 15 मई 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मापरे बलभीम तुकाराम (जेसी-459617एफ), 16 जून 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 फरवरी 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बालगुडे विजयकुमार भगवान (जेसी-459625ए), 16 जून 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 फरवरी 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार चव्हाण संजय विश्वनाथ (जेसी-459464एच), 15 मई 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार पाटिल बालासाहेब राजाराम (जेसी-459426एम), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार पाडोले किशन श्रीराम (जेसी-459504वाई), 01 मई 2009

नायब सूबेदार संतोष गौवकर (जेसी-459517डब्ल्यू), 01 मई 2009

नायब सूबेदार इंगले सुभाष दत्तात्रय (जेसी-459534डब्ल्यू), 22 जून 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार खैरनार जिवराज दशरथ (जेसी-459566वाई), 23 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार धादव रंगराव बंडु (जेसी-459579डब्ल्यू), 25 जून 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 मई 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार शिंदे बबन कारभारी (जेसी-459432ए), 15 जुलाई 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 मई 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार लड्कट रविन्द्र भगवान (जेसी-459489पी), 06 जुलाई 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार श्रीकांत रामचन्द्र सुतार (जेसी-459561ए), 09 जुलाई 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार दरकुंडे महादेव जगन्नाथ (जेसी-459537के), 01 जून 2009

नायब सूबेदार सुरेश देसाई (जेसी-459541एम), 20 जून 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मोहम्मद खाजा (जेसी-459576एच), 21 जुलाई 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार माने अशोक सत्वाप्पा (जेसी-459463ए), 11 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बासाप्पा कुरी (जेसी-459688एच), 27 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) इक्का पौलस सेब्रस (जेसी-459406वाई), 05 जुलाई 2009 \*

\*(सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (लिपिक) कौडम अप्पासाहेब विश्वनाथ (जेसी-459436डब्ल्यू), 09 जुलाई 2009 \*

\*(सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

डांगरा रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार छेरिंग नोरबू बोध, शौर्य चक्र (जेसी-519632एच), 02 सितम्बर 2009 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 अगस्त 2009 से )

सूबेदार नील चन्द, शौर्य चक्र (जेसी-519651एन), 01 अक्टूबर 2009 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से )

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार ओमकार चन्देल (जेसी-520299एफ), 21 जुलाई 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से )

नायब सूबेदार रोमेश सिंह (जेसी-520506एच), 15 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से )

नायब सूबेदार बसंत कुमार (जेसी-520514एफ), 19 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से )

नायब सूबेदार देश राज (जेसी-520516एम), 17 सितम्बर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से )

नायब सूबेदार जगदेव सिंह (जेसी-520530वाई), 15 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से )

नायब सूबेदार संतोष कुमार (जेसी-520533एम), 24 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से )

नायब सूबेदार पंजाब सिंह परशर (जेसी-520593एफ), 09 सितम्बर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से )

नायब सूबेदार तोर्थ राम (जेसी-520807एम), 14 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से )

नायब सूबेदार चन्द लाल (जेसी-520494वाई), 13 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से )

नायब सूबेदार धर्म सिंह (जेसी-520518एक्स), 21 सितम्बर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से )

नायब सूबेदार मंजीत सिंह (जेसी-520588डब्ल्यू), 28 सितम्बर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से )

नायब सूबेदार शक्ति सिंह (जेसी-520520पी), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-520539एन), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-520455ए), 01 अक्टूबर 2009

#### सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) कमल देव (जेसी-520286क), 01 अक्टूबर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से )

नायब सूबेदार (लिपिक) मदन लाल (जेसी-520296एम), 10 जून 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009 से )

#### डोगरी रैंजियर

#### सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मनोहर लाल (जेसी-519800डब्ल्यू), 24 अक्टूबर 2009 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से )

#### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार केवल कृष्ण (जेसी-520554एच), 01 अक्टूबर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से )

नायब सूबेदार निष्का राम (जेसी-520559एफ), 24 अक्टूबर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से )

नायब सूबेदार विधि चन्द (जेसी-520592वाई), 15 सितम्बर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से )

नायब सूबेदार वेद प्रकाश (जेसी-520600एम), 26 सितम्बर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से )

नायब सूबेदार दर्शन लाल, सेना मैडल (जेसी-520641डब्ल्यू), 12 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से )

नायब सूबेदार सोहन सिंह (जेसी-520808पी), 16 अक्टूबर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से )

नायब सूबेदार ओम पाल (जेसी-520422पी), 25 सितम्बर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 जून 2009 से )

नायब सूबेदार पवन कुमार (जेसी-520438ए), 25 सितम्बर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 अगस्त 2009 से )

नायब सूबेदार अशोक कुमार वर्मा (जेसी-520566एक्स), 24 अक्टूबर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 सितम्बर 2009 से )

#### सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) तरसेम सिंह (जेसी-520298वाई), 04 नवम्बर 2009

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2009 से )

#### गढ़वाल रोइफ़कल्प

#### सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार जयबीर सिंह (जेसी-529083एफ), 04 जून 2009 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जाती है)

सूबेदार शिवेन्द्र कुमार (जेसी-529271एच), 01 अगस्त 2009

सूबेदार मोहन सिंह (जेसी-529053के), 04 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाती है)

सूबेदार देशी प्रसाद, शौर्य चक्र (जेसी-529322एल), 01 अक्टूबर 2009

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार रणवीर सिंह (जेसी-530015ए), 13 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाती है)

नायब सूबेदार शिवा प्रसाद (जेसी-530016एच), 20 मई 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार गजेन्द्र सिंह (जेसी-530324एच), 17 जुलाई 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार धर्म सिंह अशवाल (जेसी-530203एफ), 30 जुलाई 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार गोपाल चन्द्र (जेसी-530226एच), 30 जुलाई 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार जयवीर सिंह रावत (जेसी-530249के), 27 जुलाई 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मोती लाल (जेसी-530303एम), 27 जुलाई 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सोबन चन्द (जेसी-530329एफ), 27 जुलाई 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार देवेन्द्र सिंह (जेसी-530201डब्ल्यू), 24 जुलाई 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जेसी-530296एफ), 12 जुलाई 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार भाग चन्द्र सिंह (जेसी-530157एक्स), 07 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार गजपाल सिंह (जेसी-530218के), 07 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार जीतपाल सिंह (जेसी-530240पी), 08 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार शक्ति प्रसाद, सेना मैडल (जेसी-530244एल), 08 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार खीम सिंह (जेसी-530292एल), 05 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सरूप सिंह (जेसी-530181एन), 01 जून 2009

नायब सूबेदार राम सिंह (जेसी-530175ए), 01 जून 2009

नायब सूबेदार चन्द्र शेखर कुक्रेती (जेसी-530349पी), 10 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मदन सरण सिंह कठैत (जेसी-530182डब्ल्यू), 08 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार भरत सिंह रमोला (जेसी-530278आई), 08 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार प्रकाश सिंह (जेसी-530315एफ), 10 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सोबन सिंह (जेसी-530151डब्ल्यू), 06 जुलाई 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-530149आई), 04 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

- नायब सूबेदार सतीश सिंह रावत (जेसी-530150एन), 04 अगस्त 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार परशु राम (जेसी-530152वाई), 12 अगस्त 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार हरेन्द्र सिंह (जेसी-530184एफ), 04 अगस्त 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार सुनील कुमार (जेसी-530192ए), 04 अगस्त 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार दामोदर प्रसाद कण्डवाल (जेसी-530146एल), 01 जून 2009
- नायब सूबेदार चौधरी विक्रम सिंह (जेसी-530213एल), 01 जून 2009
- नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह राणा (जेसी-530214एन), 01 जून 2009
- नायब सूबेदार बलवन्त सिंह नेगी (जेसी-530237पी), 01 जून 2009
- नायब सूबेदार मकान सिंह (जेसी-530298एम), 01 जून 2009
- नायब सूबेदार कुशाल सिंह भण्डारी (जेसी-530306ए), 01 जून 2009
- नायब सूबेदार तेजपाल सिंह, सेना मैडल (जेसी-530339एल), 01 जून 2009
- नायब सूबेदार शिवराज सिंह (जेसी-530370एक्स), 01 जून 2009
- नायब सूबेदार कमलेश गुसाईं (जेसी-530163एल), 13 अगस्त 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार दरखान सिंह (जेसी-530144ए), 01 जून 2009
- नायब सूबेदार भगवत सिंह (जेसी-530230एल), 01 जून 2009
- नायब सूबेदार दामोदर प्रसाद (जेसी-530158ए), 15 अगस्त 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार महाराज सिंह (जेसी-530161ए), 15 अगस्त 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार गोविन्द सिंह (जेसी-530223पी), 15 अगस्त 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार रविन्द्र सिंह बिष्ट (जेसी-530205एम), 15 अगस्त 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार भगवान सिंह (जेसी-530232डब्ल्यू), 15 अगस्त 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार मनीष शर्मा (जेसी-530250वाई), 15 अगस्त 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार दिनेश कुमार (जेसी-530247वाई), 16 अगस्त 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-530170एफ), 10 अगस्त 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार चन्द्र शेखर पुरोहित (जेसी-530173पी), 01 जून 2009
- नायब सूबेदार प्रकाश चन्द्र सेमवाल (जेसी-530266के), 01 जून 2009
- नायब सूबेदार रामा नन्द (जेसी-530331वाई), 02 अगस्त 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार बिरेंद्र सिंह (जेसी-530332एफ), 01 जून 2009
- नायब सूबेदार बिरेंद्र सिंह (जेसी-530378के), 01 जून 2009
- नायब सूबेदार कमल सिंह (जेसी-530297के), 01 जून 2009
- नायब सूबेदार हयात सिंह (जेसी-530243एच), 22 अगस्त 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार रणवीर सिंह (जेसी-530145एच), 01 जून 2009
- नायब सूबेदार भारतेन्द्र कुमार (जेसी-530143एक्स), 01 जून 2009
- नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-530176एच), 01 जून 2009
- नायब सूबेदार श्याम सिंह (जेसी-530314वाई), 01 जून 2009
- नायब सूबेदार उमा नन्द (जेसी-530322एक्स), 10 जून 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार देव प्रवीण सिंह (जेसी-530323ए), 09 जुलाई 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार मोहन सिंह (जेसी-530139पी), 24 अगस्त 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)



नायब सूबेदार रतन सिंह (जेसी-530227एल), 01 जून 2009

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-530202आई), 05 सितम्बर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार शिशुपाल सिंह (जेसी-530279एफ), 17 सितम्बर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रामपाल सिंह (जेसी-530300आई), 05 सितम्बर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-530282एफ), 19 सितम्बर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार दरवान सिंह (जेसी-530088एम), 01 सितम्बर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार चन्दन सिंह (जेसी-530321पी), 17 सितम्बर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मदन लाल कुनियाल (जेसी-530301एफ), 27 जुलाई 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार भूपेन्द्र सिंह (जेसी-530392डब्ल्यू), 27 जुलाई 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-530394एफ), 27 जुलाई 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-530396एम), 27 जुलाई 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रघुवीर सिंह रावत (जेसी-530395के), 10 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार प्रेम चन्द्र (जेसी-530193एच), 28 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार गोविन्द सिंह (जेसी-530302के), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह (जेसी-530091एम), 01 सितम्बर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 जुलाई 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कचक सिंह (जेसी-530108पी), 01 सितम्बर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 जुलाई 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह (जेसी-530042के), 07 सितम्बर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 अगस्त 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मनजीत सिंह (जेसी-529941आई), 08 सितम्बर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सतीश चन्द्र (जेसी-529944एम), 14 सितम्बर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह नेगी (जेसी-530005डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार विजय सिंह (जेसी-530010एफ), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार सुल्तान सिंह (जेसी-530169एम), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार बीर सिंह (जेसी-530368ए), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार श्री कृष्ण चन्द्र (जेसी-530397पी), 01 अक्टूबर 2009

नायब सूबेदार रघुवीर सिंह नेगी (जेसी-530027पी), 01 अक्टूबर 2009

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-530097एन), 01 अक्टूबर 2009

नायब सूबेदार ताजबख्श सिंह (जेसी-530113ए), 01 अक्टूबर 2009

#### जम्मू और कश्मीर राईफलस

#### सूबेदार मेजर जी डी के रैंक में

सूबेदार गोपाल सिंह (जेसी-579613एफ), जैक राईफलस, 01 अगस्त 2009

सूबेदार सुखा सिंह धिर्क (जेसी-579160एफ), जैक राईफलस, 01 सितम्बर 2009

सूबेदार बख्शिश सिंह (जेसी-579634एक्स), जैक राईफलस, 01 सितम्बर 2009

#### सूबेदार जी डी के रैंक में

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-580394एक्स), जैक राईफलस, 01 दिसम्बर 2008



नाथब सूबेदार बलराम सिंह (जेसी-580443पी), जैक राईफल,  
01 जून 2009

नाथब सूबेदार सुनील कुमार, एस एम (जेसी-580461एक्स), जैक  
राईफल, 01 जून 2009

नाथब सूबेदार मजराज सिंह वल्लभ (जेसी-580462ए), जैक राईफल,  
01 जून 2009

नाथब सूबेदार राज कुमार (जेसी-580463एच), जैक राईफल,  
01 जून 2009

नाथब सूबेदार वैन सिंह (जेसी-580464एल), जैक राईफल, 01 जून  
2009

नाथब सूबेदार करमल सिंह (जेसी-580500एल), जैक राईफल,  
01 जून 2009

नाथब सूबेदार बकाल चन्द (जेसी-580521एफ), जैक राईफल,  
01 जून 2009

नाथब सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-580580एम), जैक राईफल,  
01 जून 2009

नाथब सूबेदार मोघ राज परमार (जेसी-580436वाई), जैक राईफल,  
01 जुलाई 2009

नाथब सूबेदार स्वामी राम (जेसी-580314पी), जैक राईफल,  
01 अगस्त 2009

नाथब सूबेदार जनकार सिंह (जेसी-580389एम), जैक राईफल,  
01 अगस्त 2009

नाथब सूबेदार जागर सिंह (जेसी-580444एक्स), जैक राईफल,  
01 अगस्त 2009

नाथब सूबेदार दर्शन सिंह (जेसी-580610ए), जैक राईफल,  
01 सितम्बर 2009

सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार सरचन सिंह (जेसी-579355एम), जैक राईफल, 01 जुलाई  
2009

सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नाथब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-580453वाई), जैक राईफल,  
01 जून 2009

नाथब सूबेदार कालि दास (जेसी-580454एफ), जैक राईफल,  
01 जून 2009

नाथब सूबेदार बलबिर सिंह (जेसी-580455के), जैक राईफल,  
01 जून 2009

नाथब सूबेदार स्वर्ण सिंह (जेसी-580469के), जैक राईफल,  
01 जून 2009

नाथब सूबेदार राकेश पाल सिंह (जेसी-580470वाई), जैक राईफल,  
01 जून 2009

नाथब सूबेदार रूप लाल चन्देल (जेसी-580471एफ), जैक राईफल,  
01 जून 2009

नाथब सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-580476ए), जैक राईफल,  
01 जून 2009

नाथब सूबेदार राम लाल (जेसी-580481एल), जैक राईफल,  
01 जून 2009

नाथब सूबेदार कुलदीप राज (जेसी-580522के), जैक राईफल,  
01 जून 2009

नाथब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-580524पी), जैक राईफल,  
01 जून 2009

नाथब सूबेदार बनवारी लाल (जेसी-580554एम), जैक राईफल,  
01 जून 2009

नाथब सूबेदार अथ सिंह (जेसी-580576एल), जैक राईफल, 01 जून  
2009

नाथब सूबेदार भोविन्द सिंह (जेसी-580579वाई), जैक राईफल,  
01 जून 2009

नाथब सूबेदार शेर बहादुर थापा (जेसी-580582वाई), जैक राईफल,  
01 जून 2009

नाथब सूबेदार सरचन कुमार (जेसी-580362पी), जैक राईफल,  
01 जुलाई 2009

नाथब सूबेदार देव राज (जेसी-580388के), जैक राईफल, 01 जुलाई  
2009

नाथब सूबेदार कुलबिर सिंह कठोच (जेसी-580492एक्स), जैक  
राईफल, 01 जुलाई 2009

नाथब सूबेदार रई दास (जेसी-580539एक्स), जैक राईफल,  
01 जुलाई 2009

नाथब सूबेदार स्वर्ण चन्द (जेसी-580553के), जैक राईफल,  
01 जुलाई 2009

नाथब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-580254एल), जैक राईफल,  
01 अगस्त 2009

नाथब सूबेदार राजिन्द सिंह (जेसी-580611एच), जैक राईफल,  
01 सितम्बर 2009

संजाच रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार प्रीतम सिंह (जेसी-428948एफ), 01 सितम्बर 2009

सूबेदार निशान सिंह (जेसी-429179पी), 01 सितम्बर 2009

सूबेदार के रैंक में

नाथब सूबेदार राजिन्दर सिंह बनियाल (जेसी-430236एक्स),  
01 जून 2009

नाथब सूबेदार नरेश कुमार (जेसी-430303एक्स), 23 जून 2009

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मनमोहन सिंह (जेसी-429008एच), 01 सितम्बर 2009

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जेसी-430283पी), 01 जून 2009

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-430289डब्ल्यू), 01 जून 2009

नायब सूबेदार जसवंत सिंह (जेसी-430107एक्स), 23 जून 2009

नायब सूबेदार रणधीर सिंह (जेसी-429599पी), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार चरन सिंह (जेसी-429703एक्स), 01 अक्टूबर 2009

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-429002एफ), 01 सितम्बर 2009

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र परमार (जेसी-430157एच), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार जसवीर सिंह (जेसी-429570एम), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार दीलत सिंह (जेसी-429571पी), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार मलकीत सिंह (जेसी-430073पी), 01 सितम्बर 2009

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सुभाष सिंह (जेसी-429268एन), 01 अगस्त 2009

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार धनपत सिंह (जेसी-430146डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार रघुवीर सिंह (जेसी-430161एल), 01 जून 2009

नायब सूबेदार तरलोक सिंह (जेसी-430186एक्स), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार अमर नाथ (जेसी-430193एन), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार मूलख राज (जेसी-429890एफ), 01 अगस्त 2009

## जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री

## सूबेदार मेजर की पदोन्नति के लिए

सूबेदार मोहम्मद हुसैन (जेसी-592712एच), 03 सितम्बर 2009

(सूबेदार मेजर के रैंक में 01 सितम्बर 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार नेक राम (जेसी-592539के), 01 अक्टूबर 2009

(सूबेदार मेजर के रैंक में 01 अक्टूबर 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार तिलक राज (जेसी-592673पी), 04 नवम्बर 2009

(सूबेदार मेजर के रैंक में 01 नवम्बर 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार सदिक हुसैन (जेसी-592556के), 01 अगस्त 2009

(सूबेदार मेजर के रैंक में 01 अगस्त 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

## 4 जीआर

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार प्रेम बहादुर पुन (जेसी-612357ए), अब सूबेदार मेजर, 09 जनवरी 2009@@

@@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 दिसम्बर 2008)

सूबेदार नर बहादुर गुरूंग (जेसी-612436पी), अब सूबेदार मेजर, 01 अप्रैल 2009

सूबेदार यम बहादुर थापा (जेसी-612400डब्ल्यू), अब सूबेदार मेजर, 07 सितम्बर 2009@

@@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 सितम्बर 2009)

सूबेदार जीत बहादुर पुन (जेसी-612404एम), अब सूबेदार मेजर, 02 अक्टूबर 2009@

@@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2009)

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) उदय कुमार सिंह (जेसी-612629पी), अब सूबेदार (लिपिक), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार (लिपिक) अजीत कुमार ठाकुर (जेसी-612633एक्स), अब सूबेदार (लिपिक), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार (लिपिक) बादल देवनाथ (जेसी-612668एन), अब सूबेदार (लिपिक), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार सिद्धा बहादुर थापा (जेसी-612642वाई), अब सूबेदार, 17 मार्च 2009@

@@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 05 मार्च 2009)

नायब सूबेदार अर्पण थापा (जेसी-612675के), अब सूबेदार, 23 अप्रैल 2009@

@@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अप्रैल 2009)

नायब सूबेदार महेन्द्र कुमार श्रेष्ठा (जेसी-612681एक्स), अब सूबेदार, 04 मई 2009@

@@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 मई 2009)

नायब सूबेदार नारायण सिंह रेस्मी (जेसी-612703एल), अब सूबेदार, 07 जून 2009@

@@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जून 2009)

नायब सूबेदार गोविन्द रिजल (जेसी-612692के), अब सूबेदार, 24 जून 2009@

@@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जून 2009)

नायब सूबेदार गिर बहादुर थापा (जेसी-612700एक्स), अब सूबेदार, 08 जून 2009@

@@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जून 2009)

नायब सूबेदार होम बहादुर गुरुंग (जेसी-612705डब्ल्यू), अब सूबेदार,  
16 जून 2009@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जून 2009)

नायब सूबेदार बल बहादुर थापा (जेसी-612709एम), अब सूबेदार,  
12 जून 2009@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जून 2009)

नायब सूबेदार खेम राज गुरुंग (जेसी-612718एन), अब सूबेदार,  
07 जून 2009@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जून 2009)

नायब सूबेदार दान बहादुर थापा (जेसी-612719डब्ल्यू), अब सूबेदार,  
16 जून 2009@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जून 2009)

नायब सूबेदार संता कुमार श्रेष्ठा (जेसी-612720एल), अब सूबेदार,  
29 जून 2009@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जून 2009)

नायब सूबेदार यम बहादुर गुरुंग (जेसी-612721एन), अब सूबेदार,  
01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार तारा प्रसाद थापा (जेसी-612729ए), अब सूबेदार,  
01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार शेर बहादुर थापा (जेसी-612671एन), अब सूबेदार,  
01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार (लिपिक) सुरेश चन्द्र (जेसी-612676एम), अब  
सूबेदार (लिपिक), 01 अगस्त 2009

नायब सूबेदार चिन बहादुर बुदुया पुन (जेसी-612673वाई), अब  
सूबेदार, 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार दुर्गा बहादुर थापा (जेसी-612674एफ), अब सूबेदार,  
01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार भंदा बहादुर गुरुंग (जेसी-612643एफ), अब सूबेदार,  
07 अगस्त 2009@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 02 अगस्त 2009)

नायब सूबेदार (लिपिक) करन सिंह (जेसी-612708के), अब सूबेदार  
(लिपिक), 01 सितम्बर 2009

नियमित सेना इन्फैन्ट्री--जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री

सूबेदार (लिपिक) की पदोन्नति के लिए

नायब सूबेदार (लिपिक) राम भरोसे लाल (जेसी-593132ए),  
01 अगस्त 2009

[सूबेदार (लिपिक) के रैंक में 01 अगस्त 2009 से वरिष्ठता दी जाती है]

पंजाब रेजिमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सूरजीत सिंह (जेसी-430183के), 28 जुलाई 2009

नायब सूबेदार असबीर सिंह (जेसी-430032एल), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-430211एल), 01 नवम्बर 2009

नायब सूबेदार चरनजीत सिंह (जेसी-429520एफ), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार जगीर सिंह (जेसी-430268ए), 14 अगस्त 2009

नायब सूबेदार हरमेश कुमार (जेसी-429880एक्स), 01 अक्टूबर 2009

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) कुलवंत सिंह (जेसी-430045एच), 01 जून  
2009

नायब सूबेदार (लिपिक) बीरपाल सिंह राणा (जेसी-430046एल),  
01 जून 2009

नायब सूबेदार (लिपिक) बोध पाल सिंह (जेसी-430082डब्ल्यू),  
01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार (लिपिक) रघुकुमार सिंह (जेसी-430083वाई), 01 जुलाई  
2009

नायब सूबेदार (लिपिक) खयल राम रैणा (जेसी-430103एफ),  
01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार (लिपिक) सुरिन्दर कुमार (जेसी-430104के), 01 जुलाई  
2009

नायब सूबेदार (लिपिक) रमेश चंद सोनी (जेसी-430084एफ),  
01 जुलाई 2009

महार रेजिमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार यशवंत सिंह (जेसी-569576एल), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार कुलवीर सिंह (जेसी-569577एन), 21 नवम्बर 2007@

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-569603के), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार धरनी थारा कुन्दु (जेसी-569623एक्स), 13 फरवरी  
2008@

नायब सूबेदार रामधन (जेसी-569592एच), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार गिरवर सिंह (जेसी-569651के), 02 नवम्बर 2007@

नायब सूबेदार रुप राम (जेसी-569652एम), 02 नवम्बर 2007@

नायब सूबेदार गोपाल सिंह (जेसी-569672ए), 12 दिसम्बर 2007@

नायब सूबेदार धरम चन्द (जेसी-569673एच), 12 दिसम्बर 2007@

नायब सूबेदार देविन्दर चन्द (जेसी-569688एल), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार गिरधारी सिंह (जेसी-569734पी), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार यश पाल सिंह (जेसी-569727वाई), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार विजय कुमार सिंह (जेसी-569737एच), 01 नवम्बर  
2007

@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2007)

नायब सूबेदार विजय गुलाबराव इंगले (जेसी-569287डब्ल्यू), 07 दिसम्बर 2007#

नायब सूबेदार सतीश कुमार (जेसी-569325एफ), 07 दिसम्बर 2007#

नायब सूबेदार नन्दलाल गुर्जर (जेसी-569566एफ), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार किशन कुमार (जेसी-569594एन), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार मुख्तार राज (जेसी-569717पी), 01 जून 2008#

नायब सूबेदार बाल किशन (जेसी-569690एच), 13 फरवरी 2008#

नायब सूबेदार राम स्वरूप (जेसी-569719ए), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार राम क्रिश्ना (जेसी-569720पी), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार रंजीत सिंह (जेसी-569721एक्स), 15 दिसम्बर 2007#

नायब सूबेदार शिशु पाल सिंह (जेसी-569735एक्स), 01 मार्च 2008#

नायब सूबेदार सिधा पाल (जेसी-569731एफ), 01 मार्च 2008#

# (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2007)

नायब सूबेदार रवेत राम (जेसी-569626एल), 09 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार हरीश कुमार (जेसी-569726डब्ल्यू), 15 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार मोरे तानाजी भीमा (जेसी-569573एक्स), 01 मार्च 2008%

नायब सूबेदार अर्नता कुमार प्रधान (जेसी-569528एल), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार अन्नानुर रहमान (जेसी-569602एफ), 16 जनवरी 2008%

नायब सूबेदार चवान अक़ुश बाबुराव (जेसी-569604एम), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार बिनीद कुमार मिश्रा (जेसी-569593एल), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार प्रफुल्ल कुमार बेहेरा (जेसी-569615वाई), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार सुरेन्द्र नाथ नायक (जेसी-569649एम), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार राम सिंह चौहान (जेसी-569722ए), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार गुरभेज सिंह (जेसी-569723एच), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार अजीत सिंह (जेसी-569730वाई), 01 जनवरी 2008

% (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2008)

नायब सूबेदार गौतम तुलशीराम पाखरे (जेसी-569296एक्स), 14 फरवरी 2008 ^

^ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 08 जनवरी 2008)

नायब सूबेदार राजेश सिंह (जेसी-569613एन), 18 जनवरी 2008

नायब सूबेदार पुरुषोत्तम सिंह (जेसी-569300पी), 20 फरवरी 2008&

नायब सूबेदार बलकार सिंह (जेसी-569307वाई), 08 मार्च 2008&

नायब सूबेदार शशी भूसन मुंडा (जेसी-569611एच), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-569636पी), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार गोपाल सिंह (जेसी-569640एक्स), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार रंजीत सिंह (जेसी-569669ए), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार मनोहर प्रसाद (जेसी-569648के), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार गोविन्द सिंह (जेसी-569684पी), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार हजारी सिंह (जेसी-569687एच), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार बैजनाथ सिंह (जेसी-569699एक्स), 07 फरवरी 2008&

नायब सूबेदार अनिल कुमार सिंह (जेसी-569714एफ), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार सुनील सिंह (जेसी-569702एम), 12 फरवरी 2008&

नायब सूबेदार सत्यवीर सिंह (जेसी-569733एम), 25 फरवरी 2008&

नायब सूबेदार समुन्दर सिंह (जेसी-569703पी), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार मिलिन्द दौलत धरगवे (जेसी-569765पी), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार जय सिंह नेगी (जेसी-569739एन), 08 फरवरी 2008&

नायब सूबेदार सोबरान सिंह (जेसी-569740एच), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार देवेन्द्र सिंह (जेसी-569796पी), 25 अक्टूबर 2008&

नायब सूबेदार लीला राम यादव (जेसी-569797एक्स), 01 अक्टूबर 2008&

बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2008&

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-569308एफ), 08 मार्च 2008\*

नायब सूबेदार खरात मिलिन्द निवर्तित (जेसी-569310वाई), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार हरमेश सिंह (जेसी-569333ए), 08 मार्च 2008\*

नायब सूबेदार लीला धर (जेसी-569375एम), 06 मई 2008\*

नायब सूबेदार रामदास राजेराम हाडे (जेसी-569515एन), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार बाबुलाल लक्ष्मणराव मंडारे (जेसी-569639एच), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार जाधव शरद अनन्दा (जेसी-569660एल), 16 अप्रैल 2008\*

\*(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2008)

नायब सूबेदार परघट सिंह (जेसी-569311एफ), 15 मार्च 2008

नायब सूबेदार बाघमारे आनन्दा गंगाराम (जेसी-569312के), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार रोहित कुमार राउत (जेसी-569455के), 02 जून 2008 <  
<(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2008)

नायब सूबेदार राम चन्द्र (जेसी-569705ए), 12 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार धेन्डे अशोक तुकाराम (जेसी-569516डब्ल्यू), 10 जून 2008 >

नायब सूबेदार जगताप धनु सोपान (जेसी-569517वाई), 13 जून 2008 >

नायब सूबेदार बन्धु कुमार क्वाजी काम्बले (जेसी-569519के), 01 मई 2008

नायब सूबेदार काम्बले भीमना शेल्काभा (जेसी-569670पी), 10 मई 2008 >

>(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2008)

आठ रेजीमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार हंस राज (जेसी-489692ए), 18 जून 2007 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार महताब सिंह दहिया (जेसी-489330वाई), 15 अक्टूबर 2007 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राम भिवास (जेसी-489792एल), 10 दिसम्बर 2007 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार होशियार सिंह (जेसी-489764वाई), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी-489828वाई), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार सतीश कुमार (जेसी-489859वाई), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार अनूप सिंह (जेसी-489833के), 04 नवम्बर 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार नरेश कुमार (जेसी-489854ए), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार बिजेन्द्र सिंह (जेसी-489856एल), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार जगदीश प्रसाद (जेसी-489869एच), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार भगत सिंह (जेसी-489936एच), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार महावीर सिंह (जेसी-490012एफ), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार शिवजी राम (जेसी-490046पी), 14 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार पदम सिंह (जेसी-490049एच), 11 जुलाई 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार श्री राम (जेसी-490055डब्ल्यू), 25 जुलाई 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार लक्ष्मण सिंह (जेसी-490076एम), 11 जुलाई 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सोर सिंह आगरिका (जेसी-489900के), 26 नवम्बर 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 अगस्त 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार अमर सिंह (जेसी-489715डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जल सिंह (जेसी-489746डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार शमशेर सिंह (जेसी-489872एच), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार राम पाल (जेसी-489855एच), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार मांगे राम (जेसी-489908डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार श्री कृष्ण (जेसी-489933पी), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार अनिल कुमार बगरिया (जेसी-489975एफ), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार गोविन्द सिंह चाहर (जेसी-490077पी), 11 जुलाई 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार चन्द्र भान (जेसी-489843एन), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार पूरन सिंह (जेसी-489874एन), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार जलदीप सिंह (जेसी-489877एफ), 09 दिसम्बर 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बागा राम (जेसी-489880एफ), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार बिजेन्द्र सिंह (जेसी-489882एम), 15 जनवरी 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार लाल चन्द (जेसी-489917एक्स), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार प्रहलाद राम जाट (जेसी-489971एल), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार रमेश चन्द (जेसी-४८९९०१एम), ०१ अक्टूबर २००८

नायब सूबेदार राम अन्तरा जाट (जेसी-४८९९४०एल), ०१ अक्टूबर २००८

नायब सूबेदार जवाहर लाल जाट (जेसी-४८९९०९वाई), ०१ अक्टूबर २००८

नायब सूबेदार राम शंकर (जेसी-४८९९२५डब्ल्यू), २१ नवम्बर २००८ \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता ०१ अक्टूबर २००८ से दी जायेगी)

नायब सूबेदार कमल सिंह (जेसी-४८९९१३एफ), ०१ अक्टूबर २००८

नायब सूबेदार प्रेमपाल सिंह (जेसी-४८९९५८एफ), १३ अक्टूबर २००८ \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता ०१ अक्टूबर २००८ से दी जायेगी)

नायब सूबेदार धर्मवीर (जेसी-४८९९६१एफ), ०३ अक्टूबर २००८ \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता ०१ अक्टूबर २००८ से दी जायेगी)

नायब सूबेदार कैलाश चन्द्र (जेसी-४९००१०डब्ल्यू), ०१ अक्टूबर २००८

नायब सूबेदार भरत सिंह (जेसी-४९०१०४एन), ११ मई २००९ \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता १२ अक्टूबर २००८ से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मेहर चन्द खारवास (जेसी-४८९९१९एच), ०१ नवम्बर २००८

नायब सूबेदार भुवानी प्रसाद (जेसी-४८९९२४एम), २० जनवरी २००९ \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता ०१ नवम्बर २००८ से दी जायेगी)

नायब सूबेदार लख राज (जेसी-४८९९२९एम), ११ जनवरी २००९ \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता ०१ नवम्बर २००८ से दी जायेगी)

नायब सूबेदार श्री पाल सिंह (जेसी-४८९९३०एफ), ११ जनवरी २००९ \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता ०१ नवम्बर २००८ से दी जायेगी)

नायब सूबेदार वेना राम (जेसी-४९०१२१एन), २४ जुलाई २००९ \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता ०१ नवम्बर २००८ से दी जायेगी)

नायब सूबेदार हेमा राम भाकर (जेसी-४९०१२२डब्ल्यू), २४ जुलाई २००९ \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता ०१ नवम्बर २००८ से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राम नारायण महला (जेसी-४९०१३५एन), १४ अगस्त २००९ \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता ०१ नवम्बर २००८ से दी जायेगी)

नायब सूबेदार भागी लाल (जेसी-४८९८७९एम), ०१ दिसम्बर २००८

नायब सूबेदार भंजरा राम (जेसी-४८९८९५के), ०१ दिसम्बर २००८

नायब सूबेदार चन्द्र वीर सिंह (जेसी-४८९९३८एन), १७ जनवरी २००९ \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता ०१ दिसम्बर २००८ से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सत्यवीर सिंह (जेसी-४८९९४४एफ), १४ अप्रैल २००९ \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता ०१ दिसम्बर २००८ से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सत्यपाल सिंह (जेसी-४८९९३१के), ११ जनवरी २००९ \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता ०१ दिसम्बर २००८ से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र (जेसी-४८९९४२डब्ल्यू), २३ मार्च २००९ \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता ०२ दिसम्बर २००८ से दी जायेगी)

नायब सूबेदार युद्धवीर (जेसी-४८९९३५ए), ०२ दिसम्बर २००८

नायब सूबेदार शीश राम लोचिव (जेसी-४८९९२०एक्स), १९ दिसम्बर २००८

नायब सूबेदार खेम चन्द बर्मा (जेसी-४८९९५४एल), १९ दिसम्बर २००८

सूबेदार (संगीतकार) के रैंक में

नायब सूबेदार (संगीतकार) रमेश सिंह (जेसी-४८९६०७एम), २२ अक्टूबर २००८ \*

\*(सूबेदार (संगीतकार) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता ०१ अक्टूबर २००८ से दी जायेगी)

भराठा लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार देसाई दत्तात्रय तुकाराम (सं. २७८४७६२पी अब जेसी-४६००५९एक्स), ०८ जुलाई २००९+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता ०१ फरवरी २००९ से दी जाती है)

हवलदार बाजद उकंडा अशु (सं. २७८३५९३एम अब जेसी-४६००६०एम), २५ जून २००९+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता ०१ मार्च २००९ से दी जाती है)

हवलदार मोहन शास्त्री (सं. 2785352एल अब जेसी-460061पी),  
04 अगस्त 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 23 मार्च 2009 से दी जाती है)

हवलदार प्रदीप मिसाल (सं. 2786885ए अब जेसी-460062एक्स),  
08 जुलाई 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जाती है)

हवलदार धामनेकर मधु भर्मा (सं. 2785329एक्स अब  
जेसी-460063ए), 21 अगस्त 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जाती है)

हवलदार प्रकाश नगारे (सं. 2785393पी अब जेसी-460064एल),  
08 जुलाई 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जाती है)

हवलदार श्रीशैलप्पा बडिगेर (सं. 2785023पी अब जेसी-460065एल),  
21 अगस्त 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 07 जून 2009 से दी जाती है)

हवलदार पाटिल तानाजी रामू (सं. 2784592डब्ल्यू अब जेसी-  
460068आई), 01 अगस्त 2009+

हवलदार सलीम एस (सं. 2788103एक्स अब जेसी-460069एफ),  
06 अगस्त 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाती है)

हवलदार विक्रम दत्तात्रय जनार्धन (सं. 2791855एम अब जेसी-  
460070डब्ल्यू), 10 अगस्त 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक पाटिल हनमंत सोपान (सं. 2783243ए अब  
जेसी-460066एन), 02 जुलाई 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

हवलदार लिपिक देल्वाडिया अश्विनकुमार केशवजी (सं. 2783279आई  
अब जेसी-460067डब्ल्यू), 01 अगस्त 2009

कृमांक रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार चन्दन सिंह (सं. 4183412एल अब जेसी-540631एन),  
25 जून 2009/01 मई 2009\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना दिनांक 01 मई 2009 से दी गई है)

हवलदार पुष्कर सिंह (सं. 4181233एम अब जेसी-540632डब्ल्यू),  
19 जून 2009/01 मई 2009\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना दिनांक 01 मई 2009 से दी गई है)

हवलदार इन्द्र सिंह बिष्ट (सं. 4181807एल अब जेसी-540633आई),  
01 जुलाई 2009

हवलदार राजकुमार (सं. 4182373डब्ल्यू अब जेसी-540634एफ),  
01 जुलाई 2009

हवलदार शिव सिंह (सं. 4180073एफ अब जेसी-540635के),  
01 जुलाई 2009

हवलदार भैरव राम (सं. 4182078एच अब जेसी-540636एम),  
06 जुलाई 2009/01 जुलाई 2009\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना दिनांक 01 जुलाई 2009 से दी गई है)

हवलदार लक्ष्मण राम (सं. 4182185के अब जेसी-540637पी),  
06 जुलाई 2009/01 जुलाई 2009\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना दिनांक 01 जुलाई 2009 से दी गई है)

हवलदार नेपाल सिंह (सं. 4181452एन अब जेसी-540638एक्स),  
26 जुलाई 2009/01 जून 2009\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना दिनांक 01 जून 2009 से दी गई है)

हवलदार गणेश दत्त पाण्डेय (सं. 4181806एल अब जेसी-540639ए),  
30 जुलाई 2009/01 जुलाई 2009\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना दिनांक 01 जुलाई 2009 से दी गई है)

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय (सं. 4181845के अब जेसी-  
540640पी), 30 जुलाई 2009/01 जुलाई 2009\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना दिनांक 01 जुलाई 2009 से दी गई है)

हवलदार सुबाश चन्द (सं. 4181706ए अब जेसी-540641एक्स),  
01 अगस्त 2009

हवलदार पुरन सिंह (सं. 4179706ए अब जेसी-540642ए), 01 अगस्त  
2009

हवलदार राकेश सिंह (सं. 4180997वाई अब जेसी-540643एच),  
10 अगस्त 2009/01 अगस्त 2009\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अगस्त 2009 से दी गई है)

हवलदार भगवान सिंह (सं. 4178564एच अब जेसी-540644एल),  
21 अगस्त 2009/01 सितम्बर 2008\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2008 से दी गई है)

हवलदार हरीश चन्द्र ओली (सं. 4181804ए अब जेसी-540645एल),  
22 अगस्त 2009/01 अगस्त 2009\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अगस्त 2009 से दी गई है)

हवलदार मोहन सिंह (सं. 4181190एच अब जेसी-540646डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2009/01 जून 2008\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 2008 से दी गई है)

हवलदार लखन सिंह यादव (सं. 4182429एम अब जेसी-540647वाई),  
01 सितम्बर 2009

हवलदार कमलेश कुमार (सं. 4182430एफ अब जेसी-540648एफ),  
01 सितम्बर 2009

हवलदार विजय सिंह (सं. 4179792एक्स अब जेसी-540649के),  
01 सितम्बर 2009

हवलदार ललित मोहन सिंह (सं. 4180211एफ अब जेसी-540650वाई), 01 सितम्बर 2009

हवलदार उत्तम सिंह चौहान (सं. 4180806वाई अब जेसी-540651एफ),  
01 सितम्बर 2009/01 जुलाई 2009\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जुलाई 2009 से दी गई है)

हवलदार राम किशन (सं. 2883842पी अब जेसी-540652एल),  
01 सितम्बर 2009

#### नागा रजिमेंट

हवलदार श्याम सिंह (सं. 14701859एन अब जेसी-590234एल),  
26 जुलाई 2009/01 जुलाई 2009\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जुलाई 2009 से दी गई है)

हवलदार धुसीमन गुरुंग (वीआरसी) (सं. 14701928एच अब जेसी-590235एन), 26 जुलाई 2009/01 जुलाई 2009\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जुलाई 2009 से दी गई है)

#### डोगरा रजिमेंट

##### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार ज्ञान सिंह (सं. 3986870एक्स अब जेसी-521040एक्स),  
08 सितम्बर 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 अप्रैल 2009 से)

हवलदार विजय कुमार (सं. 3987441एच अब जेसी-521041एच),  
03 अगस्त 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 मई 2009 से)

हवलदार देवेन्द्र सिंह (सं. 3989341डब्ल्यू अब जेसी-521042एच),  
27 जून 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 मई 2009 से)

हवलदार तुलसी दास (सं. 3988171एल अब जेसी-521043एल),  
03 अगस्त 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 मई 2009 से)

हवलदार कुलदीप कुमार (सं. 3987236एफ अब जेसी-521044एम),  
10 अगस्त 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 मई 2009 से)

हवलदार वीर चन्द (सं. 3988183ए अब जेसी-521045डब्ल्यू),  
03 अगस्त 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से)

हवलदार केशव राम (सं. 3989408के अब जेसी-521046वाई),  
27 अगस्त 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 जून 2009 से)

हवलदार दिने राम (सं. 3988715पी अब जेसी-521047एफ),  
15 अगस्त 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से)

हवलदार स्वर्ण सिंह (सं. 3988475एच अब जेसी-521048के),  
20 अगस्त 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जुलाई 2009 से)

हवलदार राकेश कुमार (सं. 3391760पी अब जेसी-521049एम),  
28 अगस्त 2009+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जुलाई 2009 से)



हवलदार साहिब सिंह (सं. 3988553पी अब जेसी-521050एफ),  
26 अगस्त 2009+

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से)

हवलदार घनम सिंह (सं. 3989277के अब जेसी-521051के),  
01 सितम्बर 2009

हवलदार भनोहर खाल (सं. 3986967एच अब जेसी-521052एम),  
09 सितम्बर 2009+

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 सितम्बर 2009 से)

#### जाट रेजिमेंट

##### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार करतार चन्द (सं. 3180805ए अब जेसी-490451एम),  
25 सितम्बर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार संजय कुमार (सं. 3183142एल अब जेसी-490452पी),  
03 सितम्बर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार जेठमल जाट (सं. 2594504वाई अब जेसी-490453एक्स),  
26 सितम्बर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

हवलदार अमर नाथ (सं. 3181261एच अब जेसी-490454ए),  
05 सितम्बर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

#### बिछ रेजिमेंट

##### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार भूपिंदर सिंह (सं. 3391840एम अब जेसी-500163डब्ल्यू),  
13 अगस्त 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 मई 2009)

हवलदार मंजिंदर सिंह (सं. 3390047एल अब जेसी-500164वाई),  
11 अगस्त 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009)

हवलदार गुरजंट सिंह (सं. 3388827एक्स अब जेसी-500165एफ),  
13 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 जुलाई 2009)

हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 3392425एक्स अब जेसी-500166के),  
11 सितम्बर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009)

हवलदार दर्या सिंह (सं. 3392421एफ अब जेसी-500167एम),  
04 अगस्त 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009)

##### नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार (लिपिक) सुरेश कुमार (सं. 15359478ए अब जेसी-500168पी), 01 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008)

हवलदार (लिपिक) काले दत्तात्रय बिठलराव (सं. 3390398ए अब जेसी-500169एक्स), 23 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008)

#### पैराशूट रेजिमेंट

##### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार भूपेन्द्र सिंह (सं. 13616617एक्स अब जेसी-413392एल),  
25 जुलाई 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 जून 2009)

हवलदार शिव दत्त शर्मा (सं. 13617380वाई अब जेसी-413393एम),  
04 जून 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 जुलाई 2009)

हवलदार गगन सिंह (सं. 13617613एम अब जेसी-413394डब्ल्यू),  
25 जुलाई 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जून 2009)

हवलदार दयाल सिंह (सं. 13618872एच अब जेसी-413395वाई),  
25 जुलाई 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 जून 2009)

हवलदार पाटील मधुकर पुन्डलिक (सं. 2788684ए अब जेसी-413396एफ), 12 अगस्त 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009)

हवलदार उत्तम सिंह (सं. ४०७३२४५एक्स अब जेसी-४१३३९७के),  
०१ जुलाई २००९

हवलदार जहांगीर सिंह (सं. १३६१७६७१एक्स अब जेसी-४१३३९८एम),  
३० मई २००९

हवलदार मुकुंद भाम सिंह (सं. २४४४०३४के अब जेसी-४१३३९९पी),  
१८ जून २००९\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता ०५ जून २००९)

हवलदार प्रेमा राय घेन्नावाल (सं. १३६१७५४१एफ अब जेसी-  
४१३४००आई), ०१ जून २००९

हवलदार बोहर सिंह (सं. १३६१८५०७एफ अब जेसी-४१३४०१एफ),  
३० मई २००९

हवलदार कमल कान्त भावड़ा (सं. १३६१८६६३एल अब जेसी-  
४१३४०२के), ०१ अगस्त २००९

हवलदार धर्मपाल (सं. १३६१८६५९एच अब जेसी-४१३४०३एम),  
०१ सितम्बर २००९

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) देवेन्द्र (सं. १३६९१७७९के अब जेसी-४१३४०४पी),  
०१ सितम्बर २००९

ब्रिगेड रेजिमेंट

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार लक्ष्मी भाणि (सं. ४२७००९५एल अब जेसी-५६०२१३ए),  
१२ सितम्बर २००९/१७ जनवरी २००९ (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक १७ जनवरी २००९ से दी जाती है)

आनंद कुमार मारंगी (सं. ४२६९१३९एल अब जेसी-५६०२१४एच),  
०१ सितम्बर २००९/२० मई २००९ (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक २० मई २००९ से दी जाती है)

हवलदार दशरथ सिंह (सं. ४२६७९९८एक्स अब जेसी-५६०२१५एल),  
१२ सितम्बर २००९/०१ जून २००९ (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक ०१ जून २००९ से दी जाती है)

हवलदार नील मन्नाब प्रधान (सं. ४२७००१४ए अब जेसी-५६०२१६एम),  
१३ सितम्बर २००९/०१ जुलाई २००९ (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक ०१ जुलाई २००९ से दी जाती है)

हवलदार राम्राम सिंह (सं. ४२६५९९०एम अब जेसी-५६०२१७डब्ल्यू),  
०८ सितम्बर २००९/०१ सितम्बर २००९ (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक ०१ सितम्बर २००९ से दी जाती है)

हवलदार केरकेटा फूलजेनस (सं. ४२६७५५३एल अब जेसी-  
५६०२०६के), ०१ सितम्बर २००९/२० मई २००९ (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक २० मई २००९ से दी जाती है)

हवलदार सोमरा कुजुर (सं. ४२६८८७४पी अब जेसी-५६०२०७एम),  
०१ सितम्बर २००९/२० मई २००९ (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक २० मई २००९ से दी जाती है)

हवलदार बिरजम राणा (सं. ४२६९०६५एफ अब जेसी-५६०२०८पी),  
०१ सितम्बर २००९/२० मई २००९ (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक २० मई २००९ से दी जाती है)

हवलदार कोहले आगेस्वर हरिश चन्द (सं. ४२६८१७८एक्स अब  
जेसी-५६०२०९एक्स), ०१ सितम्बर २००९/२० मई २००९ (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक २० मई २००९ से दी जाती है)

हवलदार कुलामनी बाग (सं. ४२६८९४७डब्ल्यू अब जेसी-५६०२१०एम),  
०१ सितम्बर २००९/०१ जुलाई २००९ (ज्येष्ठता)×

हवलदार/लिपिक राणा दिनदयाल सिंह (सं. १५३५९८०६एच अब  
जेसी-५६०२११पी), ०१ सितम्बर २००९

हवलदार/लिपिक राम कुमार घोर (सं. ४२६७७५५एम अब जेसी-  
५६०२१२एक्स), ०१ सितम्बर २००९

मिनिस्ट्रियर्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार विजय सिंह राणा (सं. २६८०९२१पी अब जेसी-  
४५०७५३डब्ल्यू), ०१ जनवरी २००९

हवलदार राजेश कुमार (सं. २६८५३७७एच अब जेसी-४५०७५४आई),  
१७ मई २००९\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता २८ फरवरी २००९)

हवलदार सागर खान (सं. २६८१३४३एक्स अब जेसी-४५०७५५एफ),  
०१ मार्च २००९

हवलदार जोगिन्दर कुमार (सं. २६८०५४१डब्ल्यू अब जेसी-  
४५०७५६के), २३ मार्च २००९

हवलदार अभय सिंह (सं. २६८२४५१एच अब जेसी-४५०७५७एम),  
०४ अप्रैल २००९

हवलदार शोकत अली खान (सं. २६८१४१२एच अब जेसी-  
४५०७५८पी), ०५ अप्रैल २००९

हवलदार मदन सिंह (सं. २६८२५८१डब्ल्यू अब जेसी-४५०७५९एक्स),  
०९ मई २००९

हवलदार नरेश कुमार (सं. 2680693एक्स अब जेसी-450760एम),  
16 मई 2009

हवलदार आनंद प्रकाश (सं. 2683981पी अब जेसी-450761पी),  
01 जून 2009

हवलदार काशीधर सिंह झाकुर (सं. 2681027आई अब जेसी-  
450762एक्स), 01 जून 2009

हवलदार करनार सिंह (सं. 2681475एल अब जेसी-450763ए),  
07 जून 2009

हवलदार नंद लाल (सं. 2680958डब्ल्यू अब जेसी-450764एच),  
01 जुलाई 2009

हवलदार रणधीर सिंह झाकन (सं. 2681067ए अब जेसी-  
450765एल), 01 जुलाई 2009

हवलदार सतपाल सिंह (सं. 2681237आई अब जेसी-450766एन),  
01 जुलाई 2009

हवलदार पेहू सिंह राठौर (सं. 2679637एम अब जेसी-  
450767डब्ल्यू), 23 जुलाई 2009

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार/लिपिक निर्मल सिंह (सं. 2683460एफ अब जेसी-  
450768आई), 01 अगस्त 2009

हवलदार/लिपिक इनैमुल हक (सं. 2683475के अब जेसी-  
450769एफ), 01 अगस्त 2009

नायब सूबेदार (संगीतकार) के रैंक में

हवलदार (संगीतकार) नवाब खान (सं. 2685340एफ अब जेसी-  
450751एल), 29 दिसम्बर 2008

पंजाब रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सुभाष चंद (सं. 2479607एल अब जेसी-430593ए),  
01 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 28 जुलाई 2009 से दी जाती है)

हवलदार रोमेश लाल (सं. 2479981एन अब जेसी-430594एच),  
24 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 14 अगस्त 2009 से दी जाती है)

हवलदार बलविन्दर सिंह (सं. 2479364एल अब जेसी-430595एल),  
01 सितम्बर 2009

हवलदार ईश्वर सिंह (सं. 2479608एन अब जेसी-430596एन),  
20 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार परमजीत सिंह (सं. 2480046एन अब जेसी-430597डब्ल्यू),  
25 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार पवितर सिंह (सं. 2479161एफ अब जेसी-430598आई),  
04 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार सुन्दर लाल भठ (सं. 2481258एल अब जेसी-430599एफ),  
01 सितम्बर 2009

हवलदार कुलदीप कुमार (सं. 2479609डब्ल्यू अब जेसी-  
430589एक्स), 04 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

हवलदार धनदेव सिंह (सं. 2480629डब्ल्यू अब जेसी-430590एम),  
17 अगस्त 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाती है)

हवलदार गुलबाग सिंह (सं. 2479923के अब जेसी-430591पी),  
01 सितम्बर 2009

हवलदार बलविन्दर सिंह (सं. 2481665एन अब जेसी-430592एक्स),  
05 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार बलजिन्दर सिंह (सं. 2479741डब्ल्यू अब जेसी-  
430568एफ), 27 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाती है)

हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 2480247एम अब जेसी-430586के),  
03 अगस्त 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाती है)

हवलदार नरेश चंद (सं. 2477046एच अब जेसी-430587एम),  
14 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

हवलदार निर्मल सिंह (सं. 2480172ए अब जेसी-430588पी),  
01 जुलाई 2009

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 2480634एफ अब जेसी-430584आई),  
30 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

हवलदार चमन लाल (सं. 2480645एन अब जेसी-430585एफ),  
30 जुलाई 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

राजपूताना राईफल  
नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार भंवर सिंह (सं. 2885588पी अब जेसी-470508पी),  
10 जुलाई 2009/01 मार्च 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)

हवलदार उपदेश सिंह तोपर (सं. 2887425ए अब जेसी-470509एक्स),  
12 अगस्त 2009/01 अप्रैल 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)

हवलदार दूंगर सिंह (सं. 2885833एम अब जेसी-470510एम),  
10 जुलाई 2009/01 अप्रैल 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)

हवलदार लिपिक जितेन्द्र सिंह (सं. 2882919ए अब जेसी-  
470511पी), 01 मई 2009

हवलदार लिपिक राजवीर सिंह (सं. 2882940एच अब जेसी-  
470512एक्स), 01 मई 2009

हवलदार लिपिक नरेंद्र सिंह (सं. 2882997एच अब जेसी-  
470513ए), 01 मई 2009

हवलदार लिपिक महेंद्र सिंह तंवर (सं. 2883006एन अब जेसी-  
470514एच), 01 मई 2009

हवलदार लिपिक घासी राम (सं. 2883633एक्स अब जेसी-  
470515एल), 10 जून 2009/01 मई 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार रोहितस बोरान (सं. 2880814एक्स अब जेसी-  
470516एन), 24 जून 2009/01 मई 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 2883434के अब जेसी- 470517डब्ल्यू),  
01 मई 2009

हवलदार नेमी चन्द (सं. 2883517पी अब जेसी- 470518वाई),  
12 अगस्त 2009/01 मई 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार होन्द्र सिंह (सं. 2887626वाई अब जेसी- 470519एफ),  
17 मई 2009/01 मई 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार मोहम्मद इस्लाम (सं. 2884439पी अब जेसी-  
470520डब्ल्यू), 07 जून 2009/01 मई 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार बिनोद सिंह, सेना मेडल (सं. 2883024एन अब जेसी-  
470521वाई), 15 अगस्त 2009/01 मई 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार पथन सिंह (सं. 2888148एम अब जेसी- 470522एफ),  
04 मई 2009/01 मई 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार हंस राज (सं. 2884407एम अब जेसी- 470523के),  
04 मई 2009/01 मई 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार देवी सिंह (सं. 2885729वाई अब जेसी- 470524एम),  
01 मई 2009

हवलदार भंवर सिंह राजपूत (सं. 2885326वाई अब जेसी-  
470525पी), 01 मई 2009

हवलदार भीख सिंह डंडा (सं. 2885452एल अब जेसी-  
470526एक्स), 29 जून 2009/17 मई 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 17 मई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार (लिपिक) सुभाश चन्द्र (सं. 2883755एफ अब जेसी-  
470527ए), 01 जून 2009

हवलदार (लिपिक) शम्भु कुमार सिंह (सं. 2884733पी अब जेसी-  
470528एच), 01 जून 2009

हवलदार (लिपिक) अंगद प्रसाद (सं. 2882909डब्ल्यू अब जेसी-  
470529एल), 01 जून 2009

हवलदार कंवर पाल सिंह तंवर (सं. 2885691ए अब जेसी-  
470530ए), 01 जून 2009

हवलदार मनोहर सिंह रजाधत (सं. 2884636एक्स अब जेसी-  
470531एच), 22 जून 2009/01 जून 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

हवलदार विक्रम सिंह (सं. 2885859एफ अब जेसी-470532एल),  
19 जून 2009/01 जून 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

हवलदार बलवंत सिंह (सं. 2883448के अब जेसी-470533एन);  
12 जून 2009/02 जून 2009\*

\*(भाष्य सूचक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 02 जून 2009 से दी जायेगी)

हवलदार धीर सिंह (सं. 2883314एल अब जेसी-470534डब्ल्यू),  
21 जुलाई 2009/25 जून 2009\*

\*(भाष्य सूचक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 25 जून 2009 से दी जायेगी)

हवलदार राजा राम सिंह (सं. 2884667एक्स अब जेसी-470535वाई),  
21 जुलाई 2009/30 जून 2009\*

\*(भाष्य सूचक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 30 जून 2009 से दी जायेगी)

बहार रेजिमेंट

भाष्य सूचक के रैंक में

हवलदार जया कृष्णा साहू (सं. 4559710डब्ल्यू अब जेसी-  
570338एल), 02 दिसम्बर 2008

हवलदार यशम रामचन्द्र पांडुरंग (सं. 4559575एन अब जेसी-  
570339एन), 07 मार्च 2009@

@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2009)

हवलदार अमिल हुसैन (सं. 4560585के अब जेसी-570340एम),  
01 जनवरी 2009

हवलदार जसपाल सिंह (सं. 4560007पी अब जेसी-570341एल),  
25 मार्च 2009#

#(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 04 जनवरी 2009)

हवलदार रविन्द्रा सिंह (सं. 4560088ए अब जेसी-570342एन),  
25 मार्च 2009\$

\$(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 07 जनवरी 2009)

हवलदार लिपिक आर सत्यावासागम (एसडी) (सं. 4558480एफ  
अब जेसी-570343डब्ल्यू), 01 मई 2009%

हवलदार लिपिक शशी शेखर पान्डे (एसडी) (सं. 4558536एब अब  
जेसी-570344वाई), 02 मई 2009%

%(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2009)

हवलदार लिपिक अतरूल हक मंडल (एसडी) (सं. 4558545के  
अब जेसी-570345एफ), 13 मई 2008^

^(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2009)

हवलदार विरेन्द्र सिंह (सं. 4560734एम अब जेसी-570346के),  
10 अक्टूबर 2008&

हवलदार सुभाष चन्द यादव (सं. 4560799ए अब जेसी-570347एम),  
10 अक्टूबर 2008&

&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2008)

हवलदार लोंधे प्रकाश शिवराम (सं. 4559162के अब जेसी-  
570348पी), 14 जनवरी 2009\*

\*(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 31 अक्टूबर 2008)

हवलदार पवार सुरेश चिंतामन (सं. 4559463एन अब जेसी-  
570349एक्स), 20 जनवरी 2009+

+(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2008)

हवलदार भरिमोय कुमार पौल (सं. 4560076एल अब जेसी-  
570350एम), 12 जनवरी 2009=

हवलदार विजय कुमार राउतरोय (सं. 4558946वाई अब जेसी-  
570351पी), 12 जनवरी 2009=

हवलदार भरत सिंह बिष्ट (सं. 4560833पी अब जेसी-570352एक्स),  
10 फरवरी 2009=

=(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2008)

हवलदार राधका दिवेश भाई चुडा भाई (सं. 4559435एन अब  
जेसी-570353ए), 20 जनवरी 2009<

<(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2009)

हवलदार कुशल सिंह (सं. 4560571के अब जेसी-570354एच),  
01 जनवरी 2009

हवलदार लालजी सिंह (सं. 4560158एम अब जेसी-570355एल),  
21 फरवरी 2009>

हवलदार काना राम (सं. 4560173एब अब जेसी-570356एन),  
05 मार्च 2009>

>(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 08 जनवरी 2009)

हवलदार मुनीशपाल सिंह (सं. 4560292वाई अब जेसी-  
570357डब्ल्यू), 21 फरवरी 2009?

?(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 24 जनवरी 2009)

हवलदार राज कुमार यादव (सं. 4561237पी अब जेसी-570358वाई),  
19 फरवरी 2009X

X(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2009)

हवलदार काम्बले मोहन शंकर राव (सं. 4558640डब्ल्यू अब  
जेसी-570359एफ), 28 मार्च 2009@@

हवलदार देवेंद्र कुमार सिंह (सं. 4561253एम अब जेसी-  
570360डब्ल्यू), 02 मार्च 2009@@

हवलदार परताप सिंह (सं. 4560177वाई अब जेसी-570361वाई),  
28 मार्च 2009@@

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 4560198पी अब जेसी-570362एफ),  
28 मार्च 2009@@

हवलदार राजपाल सिंह मलिक (सं. 4560295एम अब जेसी-  
570363के), 23 मार्च 2009@@

@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2009)

हवलदार धनन्जय सिंह (सं. 4560268एच अब जेसी-570364एम),  
23 मार्च 2009

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 4560410एफ अब जेसी-570365पी),  
23 मार्च 2009

हवलदार योगेन्द्रा सिंह बिष्ट (सं. 4559203एच अब जेसी-  
570366एक्स), 23 मार्च 2009

हवलदार सत्य नारायण सिंह (सं. 4559238वाई अब जेसी-570367ए),  
01 अप्रैल 2009

हवलदार गोविन्द सिंह मनराल (सं. 4562000के अब जेसी-  
570368एच), 13 मई 2009##

##(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2009)

हवलदार लिपिक (एसडी) शैलेन्द्र सिंह रावत (सं. 4559016के अब  
जेसी- 570369एल), 16 मई 2009\$\$

\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2009)

हवलदार लिपिक (एसडी) पवासे विलास खांडे राव (सं. 15359514ए  
अब जेसी-570370ए), 20 मई 2009%%

%%(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2009)

हवलदार गोपाल लाल जाट (सं. 4561516ए अब जेसी-570371एच),  
18 अप्रैल 2009^^

हवलदार सूरज मल जाट (सं. 4561525एफ अब जेसी-570372एल),  
29 अप्रैल 2009^^

^^ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 08 दिसम्बर 2008)

हवलदार लोखंडे सतेन्द्र शंकर (सं. 4559763पी अब  
जेसी-570373एन), 09 अप्रैल 2009&&

&&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2008)

हवलदार शमशेर बहादुर सिंह (सं. 4561606एफ अब  
जेसी-570374डब्ल्यू), 05 जून 2009\*\*

\*\* (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2008)

हवलदार जंग बहादुर राम (सं. 8032605एम अब जेसी-570375वाई),  
10 जनवरी 2009

हवलदार श्यामल कुमार मंडल (सं. 4560829एम अब  
जेसी-570376एफ), 29 मार्च 2009++

++ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2009)

हवलदार केदार राजू बलभीम (सं. 4560648एफ अब जेसी-  
570377के), 14 मई 2009==

हवलदार अचिन्ता कुमार मंडल (सं. 4561051एल अब  
जेसी-570378एम), 29 मार्च 2009==

==(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2009)

हवलदार मान सिंह (सं. 4560053के अब जेसी-570379पी),  
09 अप्रैल 2009<<

<<(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 12 मार्च 2009)

हवलदार केशव देव (सं. 4560092एच अब जेसी-570380के),  
13 मई 2009>>

>>(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 21 मार्च 2009)

हवलदार विजय सिंह (सं. 4560101वाई अब जेसी-570381एम),  
13 मई 2009??

??(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 31 मार्च 2009)

हवलदार सोनावने वालमिक भावसिंग (सं. 4561123के अब जेसी-  
570382पी), 14 मई 2009£

£(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2009)

हवलदार लिपिक(एसडी) निकम दागा दौलत (एसडी) (सं.  
15359532एच अब जेसी-570383एक्स), 01 जुलाई 2009

हवलदार दुपटे शरद भानुदास (सं. 4559006ए अब जेसी-570384ए),  
18 जुलाई 2009£

£(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2009)

हवलदार काम्बले माधव पांडुरंग (सं. 4559343पी अब  
जेसी-570385एच), 29 अप्रैल 2008€

€(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2009)

हवलदार सावंत फुले कान्तीलाल जोगु (सं. 4559672एल अब जेसी-  
570386एल), 12 जुलाई 2009†

†(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 11 जनवरी 2009)

हवलदार लक्ष्मण गिरी (सं. 4560204एक्स अब जेसी-570387एन),  
16 मार्च 2009††

††(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2009)

हवलदार रिषी राम (सं. 4560091ए अब जेसी-570388डब्ल्यू),  
29 जून 2009Ω

Ω(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 25 मार्च 2009)

हवलदार अवघड़े शशीकान्त भगवान (सं. 4558351एफ अब जेसी-  
570389वाई), 27 जुलाई 2009££

££(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2009)

हवलदार लाल सिंह वर्मा (सं. 4555425ए अब जेसी-570390एन),  
23 जून 2009££

££ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 30 अप्रैल 2009)

हवलदार चवान किसन शिवराम (सं. 4560821ए अब  
जेसी-570391डब्ल्यू), 27 जुलाई 2009€€

€€(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2009)

हवलदार हरमिन्दर सिंह (सं. 4560306एन अब जेसी-570392वाई),  
01 जून 2009

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 4559316एल अब जेसी-570393एफ),  
20 जून 2009††

††(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 03 जून 2009)

हवलदार मनवार हरि अर्जुन (सं. 4561146एल अब जेसी-570394के), 27 जुलाई 2009†

†(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2009)

जम्मू और कश्मीर राईफलस

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार सुरिन्दर कुमार (सं. 13754320पी अब जेसी-580987के),  
13 अगस्त 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जुलाई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार अशोक कुमार (सं. 13752266एन अब जेसी-580988एम),  
10 अगस्त 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 जुलाई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार नर बहादुर (सं. 13750883एक्स अब जेसी-580989पी),  
12 अगस्त 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

हवलदार वजीर सिंह (सं. 13752148ए अब जेसी-580990के),  
15 अगस्त 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

हवलदार राज कुमार (सं. 13751194एच अब जेसी-580991एम),  
03 अगस्त 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

हवलदार मनोहर लाल (सं. 13750881एम अब जेसी-580992पी),  
10 अगस्त 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

हवलदार अशोक कुमार वर्मा (सं. 13751100ए अब जेसी-580993एक्स), 19 अगस्त 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

हवलदार राजेन्द्र सिंह राणा (सं. 13750939वाई अब जेसी-580994ए),  
03 सितम्बर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार जय प्रकाश ठाकुर (सं. 13751337एक्स अब जेसी-580995एच), 03 सितम्बर 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार अब्दुल हसन अंसारी (सं. 13751838एक्स अब जेसी-580996एल), 01 सितम्बर 2009 \*

क्वचित कोर

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार मोहन सिंह धामी (सं. 1088068एक्स अब जेसी-243855ए),  
11 नवम्बर 2009 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाती है)

दफादार अवतार सिंह (सं. 1083369एक्स अब जेसी-243610के),  
10 मई 2009 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जाती है)

दफादार ओम प्रकाश सिंह (सं. 1088288एफ अब जेसी-243857एल),  
09 नवम्बर 2009 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जुलाई 2009 से दी जाती है)

दफादार सरविजय प्रताप सिंह (सं. 15461577डब्ल्यू अब जेसी-243848के), 31 अक्टूबर 2009 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार नवाब सिंह भारांगर (सं. 1087691एफ अब जेसी-243864एफ), 03 नवम्बर 2009 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार मनोज कुमार सिंह (सं. 1087934एफ अब जेसी-243870पी),  
27 अक्टूबर 2009 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार निरोज कुमार सिंह (सं. 1087964वाई अब जेसी-243852एम),  
08 नवम्बर 2009 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार शिव मोहन (सं. 1088082के अब जेसी-243871एक्स),  
27 अक्टूबर 2009 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार सोहन लाल (सं. 1088105ए अब जेसी-243878एफ),  
06 नवम्बर 2009 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार सुदर्शन सिंह यादव (सं. 188163के अब जेसी-243853पी),  
08 नवम्बर 2009 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 19 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार पदम बिर (सं. 1088293एम अब जेसी-243854एक्स),  
08 नवम्बर 2009 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार राधे श्याम (सं. 1088484एफ अब जेसी-243862डब्ल्यू),  
30 अक्टूबर 2009 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार कृष्ण कुमार (सं. 1089071के अब जेसी-243863वाई),  
29 अक्टूबर 2009 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार राजेश कुमार सिंह (सं. 1089155एक्स अब जेसी-  
243880वाई), 06 नवम्बर 2009 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार गोपाल सिंह यादव (सं. 1089251एम अब जेसी-243879के),  
06 नवम्बर 2009 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार संजय गुण्डुगवी (सं. 1089273एल अब जेसी-243812एल),  
02 नवम्बर 2009 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार संजीव पुथेन पारायिल (सं. 1089659एल अब जेसी-  
243882के), 06 नवम्बर 2009 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार आनन्दन आर (सं. 1089833एम अब जेसी-243883एम),  
06 नवम्बर 2009 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार सम्भू सरकार (सं. 1089932पी अब जेसी-243884पी),  
11 नवम्बर 2009 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार मदन पाल (सं. 1098973ए अब जेसी-243885ए), 06 नवम्बर  
2009 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार नरेश कुमार (सं. 1099452वाई अब जेसी-243886ए),  
11 नवम्बर 2009 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार सुरेन्द्र सिंह (सं. 15461019पी अब जेसी-243888एल),  
06 नवम्बर 2009 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार जोगिन्द्र सिंह (सं. 15461203ए अब जेसी-243846वाई),  
12 नवम्बर 2009 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार राजवीर सिंह (सं. 15461302एच अब जेसी-243889एन),  
06 नवम्बर 2009 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार कमल कान्त (सं. 15461648एम अब जेसी-243866एम),  
09 नवम्बर 2009 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार श्यामवीर (सं. 15461789एफ अब जेसी-243867पी),  
09 नवम्बर 2009 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार मुकेश सिंह (सं. 15461876पी अब जेसी-243868एक्स),  
09 नवम्बर 2009 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार दलबीर (सं. 15462226एन अब जेसी-243869ए),  
09 नवम्बर 2009 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार राजेश एस (सं. 15461613डब्ल्यू अब जेसी-243901के),  
06 नवम्बर 2009 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जाती है)



- दफादार राज पाल सिंह (सं. 15462264के अब जेसी-243902एम),  
06 नवम्बर 2009\*
- \*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जाती है)
- दफादार वी बेनडोक्त (सं. 1099151पी अब जेसी-243856एच),  
02 नवम्बर 2009\*
- \*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)
- दफादार गुरप्रीत सिंह (सं. 15462424वाई अब जेसी-243859डब्ल्यू),  
12 नवम्बर 2009\*
- \*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाती है)
- दफादार सुखदेव सिंह अधवल (सं. 15462584वाई अब  
जेसी-243858एन), 03 नवम्बर 2009\*
- \*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाती है)
- दफादार संतोष कुमार सिंह (सं. 1088996एन अब  
जेसी-243860एल), 31 अक्टूबर 2009\*
- \*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाती है)
- दफादार राम नारायण राम (सं. 1086442डब्ल्यू अब  
जेसी-243796वाई), 09 अक्टूबर 2009\*
- \*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)
- दफादार तेजवीर सिंह (सं. 1087395डब्ल्यू अब जेसी-243850एफ),  
14 नवम्बर 2009\*
- \*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)
- दफादार गुंजल सुनिल खंडू (सं. 1087618एच अब जेसी-  
243797एफ), 09 अक्टूबर 2009\*
- \*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)
- दफादार राजबीर (सं. 1088146के अब जेसी-243897एम),  
17 नवम्बर 2009\*
- \*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)
- दफादार चन्द्र पाल सिंह (सं. 1089154पी अब जेसी-243798के),  
09 अक्टूबर 2009\*
- \*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)
- दफादार जी जोसफ लॉरेन्स (सं. 1089172एक्स अब जेसी-243872ए),  
31 अक्टूबर 2009\*
- \*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)
- दफादार रंजीत सिंह राठोड (सं. 1089183के अब जेसी-243799एम),  
09 अक्टूबर 2009\*
- \*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)
- दफादार देवेन्द्र कुमार सिंह (सं. 1089276वाई अब  
जेसी-243800डब्ल्यू), 09 अक्टूबर 2009\*
- \*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)
- दफादार नन्दा राम गुरजर (सं. 1089380एम अब जेसी-243874एल),  
11 नवम्बर 2009\*
- \*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)
- दफादार धरम पाल साहरन (सं. 1089481ए अब जेसी-243875एन),  
31 अक्टूबर 2009\*
- \*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)
- दफादार सत पाल सिंह (सं. 1098625वाई अब जेसी-243849एम),  
17 नवम्बर 2009\*
- \*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)
- दफादार श्री राम प्रताप सिंह (सं. 1098965एफ अब  
जेसी-243893डब्ल्यू), 23 नवम्बर 2009\*
- \*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)
- दफादार गुरंग गणेश बहादुर (सं. 1099241डब्ल्यू अब  
जेसी-243876डब्ल्यू), 02 नवम्बर 2009\*
- \*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)
- दफादार संजयन चम्बेलन (सं. 1099243एफ अब जेसी-243877वाई),  
02 नवम्बर 2009\*
- \*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)
- दफादार लक्ष्मी नारायण (सं. 15461590ए अब जेसी-243847एफ),  
13 नवम्बर 2009\*
- \*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार अंग्रेज सिंह (सं. 2482296एन अब जेसी-243873एच),  
 31 अक्टूबर 2009\*  
 \*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)  
 दफादार पेदाडा दशरथ राय (सं. 15461537पी अब जेसी-243825एच),  
 11 नवम्बर 2009\*  
 \*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)  
 दफादार सुभाष चन्द्र (सं. 15461451डब्ल्यू अब जेसी-243898पी),  
 18 नवम्बर 2009\*  
 \*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)  
 दफादार बलवन्त सिंह (सं. 1088377ए अब जेसी-243900एफ),  
 23 नवम्बर 2009\*  
 \*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जाती है)  
 जे राय चौधरी  
 अधर सचिव

-----  
 सभा शाखा

सं. 276, दिनांक 6 मई 2010--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेवा  
 कोर ऑफ इंजीनियर  
 मद्रास इंजीनियर ग्रुप

सूबेदार मेजर (लिपिक एसडी) के मूल रैंक में  
 सूबेदार क्लर्क एसडी वर्गीस पी टी (जेसी-306511वाई), 01 जनवरी 2008  
 सूबेदार क्लर्क एसडी सुरेश कुमार अवस्थी (जेसी-306669एफ), 08 दिसम्बर 2008  
 सूबेदार क्लर्क एसडी दलजीत सिंह (जेसी-306734डब्ल्यू), 21 नवम्बर 2008  
 सूबेदार क्लर्क एसडी हवा सिंह (जेसी-306831एन), 04 अक्टूबर 2008  
 सूबेदार क्लर्क एसडी मणी पी (जेसी-306833वाई), 08 नवम्बर 2008  
 सूबेदार क्लर्क एसडी अनिल कुमार ए आर (जेसी-306841एक्स), 29 दिसम्बर 2008  
 सूबेदार क्लर्क एसडी देवेन्द्रा सिंह तोमर (जेसी-306842ए), 06 अक्टूबर 2008  
 सूबेदार क्लर्क एसडी राजाराम यादव (जेसी-306870एम), 18 नवम्बर 2008

सूबेदार क्लर्क एसडी एस डेविड (जेसी-306896एफ), 15 अक्टूबर 2008  
 सूबेदार क्लर्क एसडी एस गणेशन (जेसी-306902के), 29 दिसम्बर 2008  
 सूबेदार क्लर्क एसडी बजरंगबली मिश्रा (जेसी-306903एम), 03 नवम्बर 2008  
 सूबेदार क्लर्क एसडी सूरज भान (जेसी-306904पी), 01 नवम्बर 2008  
 सूबेदार क्लर्क एसडी जी इलंगो (जेसी-306948एम), 02 दिसम्बर 2008  
 सूबेदार क्लर्क एसडी एम लिंगेसन (जेसी-306972एच), 03 दिसम्बर 2008  
 सूबेदार क्लर्क एसडी सियाराम (जेसी-307011एन), 20 जनवरी 2009  
 सूबेदार क्लर्क एसडी अवध किशोर सिंह (जेसी-307039एन), 13 फरवरी 2009  
 सूबेदार क्लर्क एसडी रमेश चंद्रा सी (जेसी-307081एम), 08 जून 2009  
 सूबेदार क्लर्क एसडी बेबी वी ए (जेसी-305880के), 03 अगस्त 2009  
 सूबेदार क्लर्क एसडी एम डी नाजिर (जेसी-305893एफ), 23 जून 2009  
 सूबेदार क्लर्क एसडी रामाचंद्रन के वी (जेसी-306064ए), 02 जून 2009  
 सूबेदार क्लर्क एसडी सदानंद आर जे (जेसी-306074के), 08 जून 2009  
 सूबेदार क्लर्क एसडी रमण प्रभु (जेसी-306076पी), 03 जुलाई 2009  
 सूबेदार क्लर्क एसडी मवतुरु नागराज राय (जेसी-306079एच), 16 सितम्बर 2009  
 सूबेदार क्लर्क एसडी जयचंद्रन वी (जेसी-306081ए), 10 अगस्त 2009  
 सूबेदार क्लर्क एसडी पूवैया के एन (जेसी-306149डब्ल्यू), 01 अगस्त 2009  
 सूबेदार क्लर्क एसडी सारदा चंद्रा पानिग्रही (जेसी-306271एम), 04 अगस्त 2009  
 सूबेदार क्लर्क एसडी अरविंदाक्षन पी एम (जेसी-306293एल), 12 अगस्त 2009  
 सूबेदार क्लर्क एसडी एम सी पलनि (जेसी-306544के), 03 अक्टूबर 2009

सूबेदार क्लर्क एसडी सत्याल (जेसी-306098एम), 05 अक्टूबर 2009

सूबेदार क्लर्क एसडी जेदे बालासाहेब अप्पाजी (जेसी-307147एक्स), 03 अक्टूबर 2009

सूबेदार मेजर (एसकेटी) के मूल रैंक में

सूबेदार एसकेटी भान सिंह (जेसी-305919एल), 16 नवम्बर 2009

सूबेदार (लिपिक एसडी/स्टोर) के मूल रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी गोपीनाथन पिल्लै सी के (जेसी-307520एम), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी रवि पी एस (जेसी-307718एल), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी मूल बंद (जेसी-307753एम), 16 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी नेतक तानाजी बाबु राव (जेसी-307756एफ), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी पवार शाशिकांत वाई (जेसी-307770एन), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी दिनेश ठाकुर (जेसी-307772वाई), 03 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी बसंत बल्लभ (जेसी-307792एम), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी फूल सिंह (जेसी-307794एक्स), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी अन्नादुर्ही आर (जेसी-307796एच), 06 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी रस्सल राज पी ई (जेसी-307797एल), 11 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी कचोले शिवाजी गिर्जु (जेसी-307812पी), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी प्रभाकरन यू एम (जेसी-307813एक्स), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी के मारुति कृष्णा (जेसी-307814ए), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी प्रमोद तराले (जेसी-307829एच), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी देवेंद्रा प्रसाद (जेसी-307837एफ), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी सुधीर बाबु एम वी (जेसी-307839एम), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी जय कृष्णा महतो (जेसी-307841के), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी एन रघुनाथन (जेसी-307884एम), 18 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी नंगा पट्टाबी रेड्डी (जेसी-307755वाई), 18 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी रामायण प्रसाद (जेसी-307534एम), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी उधय भान यादवा (जेसी-307542एल), 02 फरवरी 2009

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी प्रतिपाल सिंह नरवारिया (जेसी-307595के), 02 फरवरी 2009

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी रामदुलार सिंह (जेसी-307754डब्ल्यू), 09 फरवरी 2009

नायब सूबेदार क्लर्क स्टोर फेनडिज़ साम्सन (जेसी-307846एच), 02 फरवरी 2009

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी कृबानंदा वारियार जी (जेसी-307865एन), 02 फरवरी 2009

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी बरेंद्रनाथ बैन (जेसी-308054पी), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी अश्वनी कुमार (जेसी-307843पी), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी अचन कुंजु टी (जेसी-307877एच), 12 मई 2009

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी के यादाइय्यहा (जेसी-307878एल), 01 मई 2009

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी रामा राव के (जेसी-307880एच), 01 मई 2009

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी एस कैलाश निवरुत्ती (जेसी-307881एल), 01 मई 2009

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी सुनील के (जेसी-308055एक्स), 01 जून 2009

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी सनैश चंद्रा (जेसी-307883डब्ल्यू), 09 जुलाई 2009

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी बिनोय जाना (जेसी-307884वाई), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी बिंदेस्वरी प्रसाद पाण्डे (जेसी-307885एफ), 03 जुलाई 2009

नायब सूबेदार क्लर्क एसडी पी मोहन राज (जेसी-307879एन), 03 जुलाई 2009

- नायब सूबेदार क्लर्क एसडी जॉर्ज सी टी (जेसी-307901एन),  
01 जुलाई 2009
- नायब सूबेदार क्लर्क एसडी शिवराज सिंह (जेसी-307902डब्ल्यू),  
01 जुलाई 2009
- नायब सूबेदार क्लर्क एसडी राकेश चंद्रा (जेसी-307903वाई),  
20 अगस्त 2009
- नायब सूबेदार क्लर्क एसडी सुरेंद्रन वी पी (जेसी-307915एन),  
01 अगस्त 2009
- नायब सूबेदार क्लर्क एसडी सतिश कुमार शर्मा (जेसी-307916डब्ल्यू), 17 अगस्त 2009
- नायब सूबेदार क्लर्क एसडी सतनाम सिंह (जेसी-307917वाई),  
01 अगस्त 2009
- नायब सूबेदार क्लर्क एसडी सम्पत जे राव मोहन रॉय (जेसी-307942एक्स), 01 अगस्त 2009
- नायब सूबेदार क्लर्क एसडी पेरिचेलानारायण राजू (जेसी-307943ए),  
01 सितम्बर 2009
- नायब सूबेदार क्लर्क एसडी अजीत सिंह यादव (जेसी-307944एच),  
01 सितम्बर 2009
- नायब सूबेदार क्लर्क एसडी सोना राम गोर (जेसी-307945एल),  
01 सितम्बर 2009
- नायब सूबेदार क्लर्क एसडी बासुदेवन टी (जेसी-307961एच),  
01 सितम्बर 2009
- नायब सूबेदार क्लर्क एसडी शियो शंकर मिश्रा (जेसी-307947डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2009
- सूबेदार (एसकेटी) के मूल रैंक में
- नायब सूबेदार एसकेटी शिवदयाल (जेसी-307816एल), 01 जून 2009
- नायब सूबेदार एसकेटी नंद किशोर सिंह (जेसी-307866डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2009
- नायब सूबेदार एसकेटी एम पसुल्ला शरिफ (जेसी-307867वाई),  
15 अक्टूबर 2009
- नायब सूबेदार एसकेटी नरेश चंद (जेसी-307912ए), 01 नवम्बर 2009

अलका जोशी  
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 277, दिनांक 7 मई 2010- -राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की दिनांक 10 जनवरी 2000 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा

कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

अभिजीत मुखर्जी (एमएस-13204एल), (एमआर-07506एफ), एएमसी 12 मई 1997, वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 12 नवम्बर 1996 से हो जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवानिवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी)

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 06 अक्टूबर 2001 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

ए एस नरुल्ला

अपर महानिदेशक ससेचिसे (भास)

सेना शाखा

शुद्धि-पत्र

सं. 278, दिनांक 7 मई 2010- -राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित सेना चिकित्सा कोर अधिकारी की सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले कर्नल के पद पर

भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 11 अप्रैल 2009 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में अभिजीत मुखर्जी (एमआर-07506एफ), एएमसी की पदोन्नति :

के स्थान पर

यह पढ़ा जाए

12 मई 2008

12 नवम्बर 2007

कप्तान से मेजर के पद पर

भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 02 फरवरी 2002 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में अभिजीत मुखर्जी (एमआर-07506एफ), एएमसी की पदोन्नति :

के स्थान पर

यह पढ़ा जाए

12 मई 2001

12 नवम्बर 2000

ए एस नरुल्ला

अपर महानिदेशक ससेचिसे (भास)

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 29th May 2010

## ARMY BRANCH

No. 274, dated 6th May 2010—The President is pleased to make the promotions of the undermentioned AMC officers with effect from the dates mentioned against their names :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

Capt to be Major

Yegade Walmik Shrihari (MS-14995A) (MR-08754K), AMC, 12 Apr 2009

Sandip Singh (MS-15033H) (MR-08783Y), AMC, 12 Apr 2009

Jayanta Kumar Biswas (MS-15207X) (MR-08765W), AMC, 20 Jul 2009

Surg LT to be Surg Lt Cdr

Aabhas Mishra (MR-08066L) (75842T), AMC, 30 Dec 2008

Surg Lt Cdr to be Surg Cdr

Umesh K Dash, (MR-08265Y) (75740K), AMC, 15 Jul 2009

A S NARULA

Maj General

Addl DGAFMS (HR)

## ARMY BRANCH

No. 275, dated 6th May 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

## REGULAR ARMY

## INFANTRY

## THE SIKH REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Jagtar Singh (JC-498740W), 01 Aug 2009

To be Subs

Nb Sub Shivdev Singh (JC-499811Y), 14 Sep 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Hardev Singh (JC-499847X), 13 Sep 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gurnam Singh (JC-499852H), 26 Sep 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2009 without on pay and allowances)

To be Sub Clk

Nb Sub Clk Md Abul Kalam Azad (JC-499658N), 29 Sep 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 12 Sep 2009 without on pay and allowances)

To be Sub Maj

Sub Ranjit Singh (JC-498891P), 01 Jul 2009

To be Sub Maj Clk

Sub Clk Gouri Sankar Pattanayak (JC-498988A), 03 Sep 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Maj Clk wef 26 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Clk Yash Paul Sharma (JC-498969P), 22 Sep 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Maj Clk wef 12 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

To be Sub Clk

Nb Sub Clk Ajit Singh (JC-499527H), 01 Sep 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Clk wef 23 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

To be Sub

Nb Sub Kuldeep Singh (JC-499797X), 08 Sep 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Clk wef 29 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

## THE MARATHA LI

To be Sub Maj

Sub Chougale Laxman Govinda (JC-458603P), 01 May 2009

Sub Moneshri Appanna Usolkar (JC-458647M), 01 Jun 2009

Sub Arjun Hanumant Janagouda (JC-458665P), 02nd Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj Clk wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Himayat Tulla Khan (JC-458760F), 01st Sep 2009

To be Sub Maj Clk

Sub/Clk Kritanta Kumar Ghosh (JC-458568X), 20 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj Clk wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

To be Sub

Nb Sub Jadhav Vasant Namdeo (JC-459488M), 01 Nov 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Somashekara KN (JC-459401A), 01 Jan 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Hemant Kumar (JC-459573P), 12 Apr 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ahire Madhukar Zipru (JC-459439K), 01 Feb 2009

Nb Sub Gawali Janardhan Kakaji (JC-459560X), 07 May 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gurav Ashok Maruti (JC-459563L), 15 May 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mapare Balbhim Tukaram (JC-459617F), 16 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 17 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Balgude Vijaykumar Bhagwan (JC-459625A), 16 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 25 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Chavan Sanjay Vishwanath (JC-459464H), 15 May 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Patil Balasaheb Rajaram (JC-459426M), 01 Apr 2009

Nb Sub Padole Kisan Shriram (JC-459504Y), 01 May 2009

Nb Sub Santosh Gaonkar (JC-459517W), 01 May 2009

Nb Sub Ingale Subhash Dattatray (JC-459534W), 22 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Khairnar Jivaraj Dashrath (JC-459566Y), 23 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Yadav Rangrao Bandu (JC-459579W), 25 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 13 May 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Shinde Baban Karbhari (JC-459432A), 15 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 24 May 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ladkat Ravindra Bhagwan (JC-459489P), 06 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Shrikant Ramchandra Sutar (JC-459561A), 09 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Darkunde Mahadeo Jagannath (JC-459537K), 01 Jun 2009

Nb Sub Suresh Desai (JC-459541M), 20 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mohammad Khaja (JC-459576H), 21 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mane Ashok Satwappa (JC-459463A), 11 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Basappa Kuri (JC-459688H), 27 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

To be Sub Clk

Nb Sub Clk Ekka Paulus Shebrus (JC-459406Y), 05 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Clk wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kodag Appasaheb Vishwanath (JC-459436W), 09 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Clk wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

#### THE DOGRA REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Chhering Norbu Bodh, SC (JC-519632H), 02 Sep 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 26 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Neel Chand, SC (JC-519651N), 01 Oct 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

To be Sub

Nb Sub Omkar Chandel (JC-520299F), 21 Jul 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Romesh Singh (JC-520506H), 15 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Basant Kumar (JC-520514F), 19 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Des Raj (JC-520516M), 17 Sep 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jagdev Singh (JC-520530Y), 15 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01st Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Santosh Kumar (JC-520533M), 24 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Punjab Singh Parsher (JC-520593F), 09 Sep 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01st Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Tirath Ram (JC-520807M), 14 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01st Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Chand Lal (JC-520494Y), 13 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01st Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dharam Singh (JC-520518X), 21 Sep 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01st Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Manjit Singh (JC-520588W), 28 Sep 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Shakti Singh (JC-520520P), 01 Sep 2009

Nb Sub Kuldip Singh (JC-520539N), 01 Sep 2009

Nb Sub Baldev Singh (JC-520455A), 01 Oct 2009

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Kamal Dev (JC-520286K), 01 Oct 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (Clk) Madan Lal (JC-520296N), 10 Jun 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 May 2009 without effect on pay and allowances)

To be Sub Maj

Sub Manohar Lal (JC-519800W), 24 Oct 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

To be Sub

Nb Sub Kewal Krishan (JC-520554H), 01 Oct 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Nikka Ram (JC-520559F), 24 Oct 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01st Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bidhi Chand (JC-520592Y), 15 Sep 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ved Parkash (JC-520600M), 26 Sep 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01st Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Darshan Lal, SM (JC-520641W), 12 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01st Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sohan Singh (JC-520808P), 16 Oct 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Om Paul (JC-520422P), 25 Sep 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 21 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Pawan Kumar (JC-520438A), 25 Sep 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 25 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ashok Kumar Verma (JC-520566X), 24 Oct 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 10 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

To be Sub (Clk)

Nb Sub Clk Tarsem Singh (JC-520298Y), 04 Nov 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

To be Sub Maj

Sub Jaibir Singh (JC-529083F), 04 Jun 2009/01 May 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 May 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Shivendra Kumar (JC-529271H), 01 Aug 2009

Sub Mohan Singh (JC-529053K), 04 Aug 2009/01 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Devi Prasad, SC (JC-529322L), 01 Oct 2009

To be Sub

Nb Sub Ranbeer Singh (JC-530015A), 13 Aug 2009/01 Dec 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Shiva Prasad (JC-530016H), 20 May 2009/01 Feb 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gajendra Singh (JC-530324H), 17 Jul 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dharam Singh Aswal (JC-530203F), 30 Jul 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gopal Chandra (JC-530226H), 30 Jul 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jaybir Singh Rawat (JC-530249K), 27 Jul 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Moti Lal (JC-530303M), 27 Jul 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Soban Chand (JC-530329F), 27 Jul 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Devendra Singh (JC-530201W), 24 Jul 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ranjit Singh (JC-530296F), 12 Jul 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bhag Chandra Singh (JC-530157X), 07 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gajpal Singh (JC-530218K), 07 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jeetpal Singh (JC-530240P), 08 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Shakti Prasad, SM (JC-530244L), 08 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Khim Singh (JC-530292L), 05 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sarup Singh (JC-530181N), 01 Jun 2009

Nb Sub Ram Singh (JC-530175A), 01 Jun 2009

Nb Sub Chandra Shekhar Kukreti (JC-530349P), 10 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Madan Sharan Singh Kathait (JC-530182W), 08 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01st Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bharat Singh Ramola (JC-530278Y), 08 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Prakash Singh (JC-530315F), 10 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Soban Singh (JC-530151W), 06 Jul 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01st Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Surendra Singh (JC-530149Y), 04 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Satish Singh Rawat (JC-530150N), 04 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Parshu Ram (JC-530152Y), 12 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Harendra Singh (JC-530184F), 04 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)



Nb Sub Sunil Kumar (JC-530192A), 04 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Damodhar Prasad Kandawal (JC-530146L), 01 Jun 2009

Nb Sub Chaudhari Vikram Singh (JC-530213L), 01 Jun 2009

Nb Sub Rajendra Singh Rana (JC-530214N), 01 Jun 2009

Nb Sub Balwant Singh Negi (JC-530237P), 01 Jun 2009

Nb Sub Makan Singh (JC-530298M), 01 Jun 2009

Nb Sub Khushal Singh Bhandari (JC-530306A), 01 Jun 2009

Nb Sub Tajpal Singh, SM (JC-530339L), 01 Jun 2009

Nb Sub Shivraj Singh (JC-530370X), 01 Jun 2009

Nb Sub Kamlesh Gusain (JC-530163L), 13 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Darwan Singh (JC-530144A), 01 Jun 2009

Nb Sub Bhagwat Singh (JC-530230L), 01 Jun 2009

Nb Sub Damodhar Prasad (JC-530158A), 15 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Maharaj Singh (JC-530161A), 15 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Govind Singh (JC-530223P), 15 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ravindra Singh Bisht (JC-530205M), 15 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bhagwan Singh (JC-530232W), 15 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Manish Sharma (JC-530250W), 15 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dinesh Kumar (JC-530247Y), 16 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Prem Singh (JC-530170F), 10 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Chandra Sekhar Purohit (JC-530173P), 01 Jun 2009

Nb Sub Prakash Chandra Semwal (JC-530266K), 01 Jun 2009

Nb Sub Rama Nand (JC-530331Y), 02 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Birendra Singh (JC-530332F), 01 Jun 2009

Nb Sub Birendra Singh (JC-530378K), 01 Jun 2009

Nb Sub Kamal Singh (JC-530297K), 01 Jun 2009

Nb Sub Hayat Singh (JC-530243H), 22 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ranbeer Singh (JC-530145H), 01 Jun 2009

Nb Sub Bhartendra Kumar (JC-530143X), 01 Jun 2009

Nb Sub Pratap Singh (JC-530176H), 01 Jun 2009

Nb Sub Shyam Singh (JC-530314Y), 01 Jun 2009

Nb Sub Uma Nand (JC-530322X), 10 Jun 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dev Praveen Singh (JC-530323A), 09 Jul 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mohan Singh (JC-530139P), 24 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Birendra Singh (JC-530225A), 19 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Vir Singh (JC-530076X), 26 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jayendra Singh (JC-530210X), 06 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mahendra Singh (JC-530224X), 13 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Narendra Kumar Devrani (JC-530135Y), 27 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gopal Mani (JC-530136F), 27 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sunil Kumar (JC-530137K), 27 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sovan Singh (JC-530167F), 27 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Chandrapal Singh (JC-530238X), 31 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ranveer Singh (JC-530166Y), 13 Sep 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kalam Singh (JC-530234F), 01 Jun 2009

Nb Sub Gajay Singh (JC-530241X), 01 Jun 2009

Nb Sub Mahesh Chandra Singh (JC-530233Y), 01 Jun 2009

Nb Sub Daya Kishan Joshi (JC-530320M), 01 Jun 2009

Nb Sub Ram Singh (JC-530142P), 01 Jun 2009

Nb Sub Ram Singh (JC-530245N), 01 Jun 2009

Nb Sub Hari Singh (JC-530295Y), 01 Jun 2009

Nb Sub Chandra Prakash (JC-530242A), 20 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bharat Singh (JC-530239A), 08 Sep 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Birendra Singh (JC-530348M), 08 Sep 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jot Singh (JC-530174X), 16 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kunwar Singh (JC-530031X), 18 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rabendra Singh (JC-530102N), 11 Aug 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kishor Singh, SM (JC-530260H), 02 Sep 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Om Prakash Panchuri (JC-530261L), 12 Sep 2009/23 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 23 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Anand Singh (JC-530263W), 12 Sep 2009/23 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 23 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Lachham Singh (JC-530221K), 07 Sep 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Balwant Singh (JC-530171K), 09 Jun 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Manber Singh Chaudhari (JC-530333K), 14 Jun 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rattan Singh (JC-530227L), 01 Jun 2009

Nb Sub Surendra Singh (JC-530202Y), 05 Sep 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Shishupal Singh (JC-530279F), 17 Sep 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rampal Singh (JC-530300Y), 05 Sep 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mahendra Singh (JC-530282F), 19 Sep 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Darwan Singh (JC-530088M), 01 Sep 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Chandan Singh (JC-530321P), 17 Sep 2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Madan Lal Kuniyal (JC-530301F), 27 Jul 2009/01 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bhupendra Singh (JC-530392W), 27 Jul 2009/01 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kuldeep Singh (JC-530394F), 27 Jul 2009/01 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Surendra Singh (JC-530396M), 27 Jul 2009/01 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Raghubir Singh Rawat (JC-530395K), 10 Aug 2009/01 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Prem Chandra (JC-530193H), 28 Aug 2009/01 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Govind Singh (JC-530302K), 01 Jul 2009

Nb Sub Birendra Singh (JC-530091), 01 Sep 2009/03 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 03 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kanak Singh (JC-530108P), 01 Sep 2009/30 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 30 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Birender Singh (JC-530042K), 07 Sep 2009/22 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 22 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Manjeet Singh (JC-529941Y), 08 Sep 2009/01 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Satesh Chandra (JC-529944M), 14 Sep 2009/01 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Surender Singh Negi (JC-530005W), 01 Sep 2009

Nb Sub Vijay Singh (JC-530010F), 01 Sep 2009

Nb Sub Sultan Singh (JC-530169M), 01 Sep 2009

Nb Sub Beer Singh (JC-530368A), 01 Sep 2009

Nb Sub Shri Krishna Chandra (JC-530397P), 01 Oct 2009

Nb Sub Raghubir Singh Negi (JC-530027P), 01 Oct 2009

Nb Sub Surendra Singh (JC-530097N), 01 Oct 2009

Nb Sub Tajbar Singh (JC-530113A), 01 Oct 2009

JAK Rif

To be Substantive Sub Maj (GD)

Sub Gopal Singh (JC-579613F), JAK Rif, 01 Aug 2009

Sub Sukha Singh Virk (JC-579160F), JAK Rif, 01 Sep 2009

Sub Bakhshish Singh (JC-579634X), JAK Rif, 01 Sep 2009

To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub Ashok Kumar (JC-580394X), JAK Rif, 01 Dec 2008

Nb Sub Basant Singh (JC-580443P), JAK Rif, 01 Jun 2009

Nb Sub Sudhir Kumar SM (JC-580461X), JAK Rif, 01 Jun 2009

Nb Sub Gajraj Singh Padwal (JC-580462A), JAK Rif, 01 Jun 2009

Nb Sub Raj Kumar (JC-580463H), JAK Rif, 01 Jun 2009

Nb Sub Chain Singh (JC-580464L), JAK Rif, 01 Jun 2009

Nb Sub Karnail Singh (JC-580500L), JAK Rif, 01 Jun 2009

Nb Sub Vakil Chand (JC-580521F), JAK Rif, 01 Jun 2009

Nb Sub Rajesh Kumar (JC-580580N), JAK Rif, 01 Jun 2009

Nb Sub Som Raj Parmar (JC-580436Y), JAK Rif, 01 Jul 2009

Nb Sub Swami Ram (JC-580314P), JAK Rif, 01 Aug 2009

Nb Sub Jankar Singh (JC-580389M), JAK Rif, 01 Aug 2009

Nb Sub Jagar Singh (JC-580444X), JAK Rif, 01 Sep 2009  
 Nb Sub Dershan Singh (JC-580610), JAK Rif, 01 Sep 2009

#### JAK RIF

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub Sarwan Singh (JC-579355M), JAK Rif, 01 Jul 2009

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Suresh Kumar (JC-580453Y), JAK Rif, 01 Jun 2009  
 Nb Sub Kali Dass (JC-580454F), JAK Rif, 01 Jun 2009  
 Nb Sub Balbir Singh (JC-580455K), JAK Rif, 01 Jun 2009  
 Nb Sub Swarn Singh (JC-580469K), JAK Rif, 01 Jun 2009  
 Nb Sub Rakesh Pal Singh (JC-580470Y), JAK Rif, 01 Jun 2009  
 Nb Sub Roop Lal Chandel (JC-580471F), JAK Rif, 01 Jun 2009  
 Nb Sub Ramesh Kumar (JC-580476A), JAK Rif, 01 Jun 2009  
 Nb Sub Sham Lal (JC-580481L), JAK Rif, 01 Jun 2009  
 Nb Sub Kuldeep Raj (JC-580522K), JAK Rif, 01 Jun 2009  
 Nb Sub Surjit Singh (JC-580524P), JAK Rif, 01 Jun 2009  
 Nb Sub Banwari Lal (JC-580554M), JAK Rif, 01 Jun 2009  
 Nb Sub Jai Singh (JC-580576L), JAK Rif, 01 Jun 2009  
 Nb Sub Govind Singh (JC-580579Y), JAK Rif, 01 Jun 2009  
 Nb Sub Sher Bahadur Thapa (JC-580582Y), JAK Rif, 01 Jun 2009  
 Nb Sub Sarwan Kumar (JC-580362P), JAK Rif, 01 Jul 2009  
 Nb Sub Dev Raj (JC-580388K), JAK Rif, 01 Jul 2009  
 Nb Sub Kulbir Singh Katoch (JC-580492X), JAK Rif, 01 Jul 2009  
 Nb Sub Ruee Dass (JC-580539X), JAK Rif, 01 Jul 2009  
 Nb Sub Swaran Chand (JC-580553K), JAK Rif, 01 Jul 2009  
 Nb Sub Baldev Singh (JC-580254L), JAK Rif, 01 Aug 2009  
 Nb Sub Rajinder Singh (JC-580611H), JAK Rif, 01 Sep 2009

#### THE PUNJAB REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Pritam Singh (JC-428948F), 01 Sep 2009

Sub Nishan Singh (JC-429179P), 01 Sep 2009

To be Sub

Nb Sub Rajinder Singh Banial (JC-430236X), 01 Jun 2009

Nb Sub Naresh Kumar (JC-430303X), 23 Jun 2009

To be Sub Maj

Sub Manmohan Singh (JC-429008H), 01 Sep 2009

To be Sub

Nb Sub Ranjit Singh (JC-430283P), 01 Jun 2009

Nb Sub Ashok Kumar (JC-430289W), 01 Jun 2009

Nb Sub Jaswant Singh (JC-430107X), 23 Jun 2009

Nb Sub Randhir Singh (JC-429599P), 01 Sep 2009

Nb Sub Charan Singh (JC-429703X), 01 Oct 2009

To be Sub Maj

Sub Surjit Singh (JC-429002F), 01 Sep 2009

To be Sub

Nb Sub Subhash Chander Parmar (JC-430157H), 01 Dec 2008

Nb Sub Jasvir Singh (JC-429570M), 01 Sep 2009

Nb Sub Daulat Singh (JC-429571P), 01 Sep 2009

Nb Sub Malkiat Singh (JC-430073P), 01 Sep 2009

To be Sub Maj

Sub Subhash Singh (JC-429268N), 01 Aug 2009

To be Sub

Nb Sub Dhanpat Singh (JC-430146W), 01 Apr 2009

Nb Sub Raghubir Singh (JC-430161L), 01 Jun 2009

Nb Sub Tarlok Singh (JC-430186X), 01 Jul 2009

Nb Sub Amar Nath (JC-430193N), 01 Jul 2009

Nb Sub Mulkh Raj (JC-429890F), 01 Aug 2009

#### JAK LI

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub (GD) Mohd Hussain (JC-592712H), 03 Sep 2009

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Sep 2009)

Sub (GD) Nake Ram (JC-592539K), 01 Oct 2009

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Oct 2009)

Sub (GD) Tilak Raj (JC-592673P), 04 Nov 2009

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Nov 2009)

To be Subs Sub Maj (GD) and (Clk)

Sub (GD) Sadiq Hussain (JC-592556K), 01 Aug 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Aug 2009)

#### 4 GR

To be Sub Maj

Sub (Musn) Prem Bahadur Pun (JC-612357A), 09 Jan 2009\*

\*(Gtd ante dated seniority w/o effect on pay and allces wef 01 Dec 2008)

Sub Nar Bahadur Gurung (JC-612436P), 01 Apr 2009

Sub Yam Bahadur Thapa (JC-612400W), 07 Sep 2009\*

\*(Gtd ante dated seniority w/o effect on pay and allces wef 01 Sep 2009)

Sub Jit Bahadur Pun (JC-612404M), 02 Oct 2009\*

\*(Gtd ante dated seniority w/o effect on pay and allces wef 01 Oct 2009)

To be Sub

Nb Sub (Clk) Uday Kumar Singh (JC-612629P), 01 Feb 2009

Nb Sub (Clk) Ajeet Kumar Thakur (JC-612633X), 01 Feb 2009

Nb Sub (Clk) Badal Devnath (JC-612668N), 01 Feb 2009

Nb Sub Siddha Bahadur Thapa (JC-612642Y), 17 Mar 2009\*

\*(Gtd ante dated seniority w/o effect on pay and allces wef 05 Mar 2009)

Nb Sub Arpan Thapa (JC-612675K), 23 Apr 2009\*

\*(Gtd ante dated seniority w/o effect on pay and allces wef 01 Apr 2009)

Nb Sub Mahendra Kumar Shrestha (JC-612681X), 04 May 2009\*

\*(Gtd ante dated seniority w/o effect on pay and allces wef 01 May 2009)

Nb Sub Narayan Singh Resmi (JC-612703L), 07 Jun 2009\*

\*(Gtd ante dated seniority w/o effect on pay and allces wef 01 Jun 2009)

Nb Sub Govind Rijal (JC-612692K), 24 Jun 2009\*

\*(Gtd ante dated seniority w/o effect on pay and allces wef 01 Jun 2009)

Nb Sub Gir Bahadur Thapa (JC-612700X), 08 Jun 2009\*

\*(Gtd ante dated seniority w/o effect on pay and allces wef 01 Jun 2009)

Nb Sub Horn Bahadur Gurung (JC-612705W), 16 Jun 2009\*

\*(Gtd ante dated seniority w/o effect on pay and allces wef 01 Jun 2009)

Nb Sub Bal Bahadur Thapa (JC-612709M), 12 Jun 2009\*

\*(Gtd ante dated seniority w/o effect on pay and allces wef 01 Jun 2009)

Nb Sub Khem Raj Gurung (JC-612718N), 07 Jun 2009\*

\*(Gtd ante dated seniority w/o effect on pay and allces wef 01 Jun 2009)

Nb Sub Dan Bahadur Thapa (JC-612719W), 16 Jun 2009\*

\*(Gtd ante dated seniority w/o effect on pay and allces wef 01 Jun 2009)

Nb Sub Shanta Kumar Shreshtha (JC-612720L), 29 Jun 2009\*

\*(Gtd ante dated seniority w/o effect on pay and allces wef 01 Jun 2009)

Nb Sub Yam Bahadur Gurung (JC-612721N), 01 Jul 2009

Nb Sub Tara Prasad Thapa (JC-612729A), 01 Jul 2009

Nb Sub Sher Bahadur Thapa (JC-612671N), 01 Jul 2009

Nb Sub (Clk) Suresh Chandra (JC-612676M), 01 Aug 2009

Nb Sub Chin Bahadur Buduya Pun (JC-612673Y), 01 Sep 2009

Nb Sub Durga Bahadur Thapa (JC-612674F), 01 Sep 2009

Nb Sub Nanda Bahadur Gurung (JC-612643F), 07 Aug 2009\*

\*(Gtd ante dated seniority w/o effect on pay and allces wef 02 Aug 2009)

Nb Sub (Clk) Karan Singh (JC-612708K), 01 Sep 2009

JAK LI

To be Subs Sub Clk

Nb Sub (Clk) Ram Bharose Lal (JC-593132A), 01 Aug 2009

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Clk wef 01 Aug 2009)

#### THE PUNJAB REGIMENT

To be Sub

Nb Sub Surjit Singh (JC-430183K), 28 Jul 2009

Nb Sub Jasbir Singh (JC-430032L), 01 Sep 2009

Nb Sub Ashok Kumar (JC-430211L), 01 Nov 2009

Nb Sub Charanjit Singh (JC-429520F), 01 Mar 2009

Nb Sub Jagir Singh (JC-430268A), 14 Aug 2009

Nb Sub Harmesh Kumar (JC-429880X), 01 Oct 2009

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Kulwant Singh (JC-430045H), 01 Jun 2009

Nb Sub (Clk) Virpal Singh Rana (JC-430046L), 01 Jun 2009

Nb Sub (Clk) Bodhpal Singh (JC-430082W), 01 Jul 2009

Nb Sub (Clk) Rakam Singh (JC-430083Y), 01 Jul 2009

Nb Sub (Clk) Kheyali Ram Raina (JC-430103F), 01 Jul 2009

Nb Sub (Clk) Surinder Kumar (JC-430104K), 01 Jul 2009

Nb Sub (Clk) Ramesh Chand Soni (JC-430084F), 01 Jul 2009

#### THE MAHAR REGIMENT

To be Sub

Nb Sub Yashwant Singh (JC-569576L), 01 Nov 2007

Nb Sub Kulveer Singh (JC-569577N), 21 Nov 2007@

Nb Sub Surjeet Singh (JC-569603K), 01 Nov 2007

Nb Sub Dharani Dhara Kundu (JC-569623X), 13 Feb 2008@

Nb Sub Ramdhan (JC-569592H), 01 Nov 2007

Nb Sub Girver Singh (JC-569651K), 02 Nov 2007@

- Nb Sub Roop Ram (JC-569652M), 02 Nov 2007@  
 Nb Sub Gopal Singh (JC-569672A), 12 Dec 2007@  
 Nb Sub Dharam Chand (JC-569673H), 12 Dec 2007@  
 Nb Sub Devinder Chand (JC-569688L), 01 Nov 2007  
 Nb Sub Girdhari Singh (JC-569734P), 01 Nov 2007  
 Nb Sub Yash Pal Singh (JC-569727Y), 01 Nov 2007  
 Nb Sub Vijay Kumar Singh (JC-569737H), 01 Nov 2007  
 @(Granted seniority without effect on pay and allowances  
 wef 01 Nov 2007)  
 Nb Sub Vijay Gulabrao Ingle (JC-569287W), 07 Dec 2007#  
 Nb Sub Satish Kumar (JC-569325F), 07 Dec 2007#  
 Nb Sub Nandlal Gurjar (JC-569566F), 01 Dec 2007  
 Nb Sub Krishan Kumar (JC-569594N), 01 Dec 2007  
 Nb Sub Mulkh Raj (JC-569717P), 01 Jun 2008#  
 Nb Sub Bal Kishan (JC-569690H), 13 Feb 2008#  
 Nb Sub Ram Swaroop (JC-569719A), 01 Dec 2007  
 Nb Sub Ram Krishna (JC-569720P), 01 Dec 2007  
 Nb Sub Ranjit Singh (JC-569721X), 15 Dec 2007#  
 Nb Sub Shishu Pal Singh (JC-569735X), 01 Mar 2008#  
 Nb Sub Sish Pal (JC-569731F), 01 Mar 2008#  
 #(Granted seniority without effect on pay and allowances  
 wef 01 Dec 2007)  
 Nb Sub Revat Ram (JC-569626L), 09 Dec 2007  
 Nb Sub Harish Kumar (JC-569726W), 15 Dec 2007  
 Nb Sub More Tanaji Bhima (JC-569573X), 01 Mar 2008%  
 Nb Sub Ananta Kumar Pradhan (JC-569528L), 01 Jan 2008  
 Nb Sub Annanur Rahaman (JC-569602F), 16 Jan 2008%  
 Nb Sub Chavan Ankush Babu Rao (JC-569604M), 01 Jan  
 2008  
 Nb Sub Binod Kumar Mishra (JC-569593L), 01 Jan 2008  
 Nb Sub Prafulla Kumar Behera (JC-569615Y), 01 Jan 2008  
 Nb Sub Surendra Nath Nayak (JC-569649M), 01 Jan 2008  
 Nb Sub Ram Singh Chauhan (JC-569722A), 01 Jan 2008  
 Nb Sub Gurbhej Singh (JC-569723H), 01 Jan 2008  
 Nb Sub Ajit Singh (JC-569730Y), 01 Jan 2008  
 %(Granted seniority without effect on pay and allowances  
 wef 01 Jan 2008)  
 Nb Sub Gautam Tulshiram Pakhare (JC-569296X), 14 Feb  
 2008^  
 ^ (Granted seniority without effect on pay and allowances  
 wef 08 Jan 2008)  
 Nb Sub Rajesh Singh (JC-569613N), 18 Jan 2008  
 Nb Sub Purushottam Singh (JC-569300P), 20 Feb 2008&  
 Nb Sub Balkar Singh (JC-569307Y), 08 Mar 2008&  
 Nb Sub Shashi Bhushan Munda (JC-569611H), 01 Feb  
 2008  
 Nb Sub Pratap Singh (JC-569636P), 01 Feb 2008  
 Nb Sub Gopal Singh (JC-569640X), 01 Feb 2008  
 Nb Sub Ranjit Singh (JC-569669A), 01 Feb 2008  
 Nb Sub Manohar Prasad (JC-569648K), 01 Feb 2008  
 Nb Sub Govind Singh (JC-569684P), 01 Feb 2008  
 Nb Sub Hazari Singh (JC-569687H), 01 Feb 2008  
 Nb Sub Baijnath Singh (JC-569699X), 07 Feb 2008&  
 Nb Sub Anil Kumar Singh (JC-569714F), 01 Feb 2008  
 Nb Sub Sunit Singh (JC-569702M), 12 Feb 2008&  
 Nb Sub Satyabir Singh (JC-569733M), 25 Feb 2008&  
 Nb Sub Samunder Singh (JC-569703P), 01 Feb 2008  
 Nb Sub Milind Doulat Dhargave (JC-569765P), 01 Feb .  
 2008  
 Nb Sub Jai Singh Negi (JC-569739N), 08 Feb 2008&  
 Nb Sub Sobran Singh (JC-569740H), 01 Feb 2008  
 Nb Sub Devendra Singh (JC-569796P), 25 Oct 2008&  
 Nb Sub Leela Ram Yadav (JC-569797X), 01 Oct 2008&  
 & (Granted seniority without effect on pay and allowances  
 wef 01 Feb 2008)  
 Nb Sub Prem Singh (JC-569308F), 08 Mar 2008  
 Nb Sub Kharat Milind Nivruti (JC-569310Y), 01 Mar 2008  
 Nb Sub Harmesh Singh (JC-569333A), 08 Mar 2008\*  
 Nb Sub Lila Dhar (JC-569375M), 06 May 2008\*  
 Nb Sub Ramdas Rajeram Hade (JC-569515N), 01 Mar 2008  
 Nb Sub Babulal Laxmanrao Mandare (JC-569639H),  
 01 Mar 2008  
 Nb Sub Jadhav Sharad Ananda (JC-569660L), 16 Apr  
 2008  
 \* (Granted seniority without effect on pay and allowances  
 wef 01 Mar 2008)  
 Nb Sub Pargat Singh (JC-569311F), 15 Mar 2008  
 Nb Sub Waghmare Ananda Gangaram (JC-569312K),  
 01 Apr 2008  
 Nb Sub Rohit Kumar Rout (JC-569455K), 02 Jun 2008<  
 < (Granted seniority without effect on pay and allowances  
 wef 01 Apr 2008)

Nb Sub Ram Chandra (JC-569705A), 12 Apr 2008

Nb Sub Dhende Ashok Tukaram (JC-569516W), 10 Jun 2008>

Nb Sub Jagatap Dattu Sopan (JC-569517Y), 13 Jun 2008>

Nb Sub Nand Kumar Rupaji Kamble (JC-569519K), 01 May 2008

Nb Sub Kambale Bhimapa Shetyapa (JC-569670P), 10 May 2008>

>(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 May 2008)

#### THE JAT REGIMENT

##### To be Sub

Nb Sub Hans Raj (JC-489692A), 18 Jun 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mahtab Singh Dahiya (JC-489330Y), 15 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ram Niwas (JC-489792L), 10 Dec 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Hoshiyar Singh Jat (JC-489764Y), 01 Aug 2008

Nb Sub Baljit Singh (JC-489828Y), 01 Aug 2008

Nb Sub Satish Kumar (JC-489859Y), 01 Aug 2008

Nb Sub Anup Singh (JC-489833K), 04 Nov 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Naresh Kumar (JC-489854A), 01 Aug 2008

Nb Sub Vijender Singh (JC-489856L), 01 Aug 2008

Nb Sub Jagdish Prasad (JC-489869H), 01 Aug 2008

Nb Sub Bhagat Singh (JC-489936H), 01 Aug 2008

Nb Sub Mahabir Singh (JC-490012F), 01 Aug 2008

Nb Sub Shivji Ram (JC-490046P), 14 Aug 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Padam Singh (JC-490049H), 11 Jul 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Shri Ram (JC-490055W), 25 Jul 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Laxman Singh (JC-490076M), 11 Jul 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sher Singh Jhaharia (JC-489900K), 26 Nov 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 27 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Anar Singh (JC-489715W), 01 Apr 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jale Singh (JC-489746W), 01 Sep 2008

Nb Sub Samsher Singh (JC-489872H), 01 Sep 2008

Nb Sub Ram Pal (JC-489855H), 01 Sep 2008

Nb Sub Mange Ram (JC-489908W), 01 Sep 2008

Nb Sub Shri Krishan (JC-489933P), 01 Sep 2008

Nb Sub Anil Kumar Bagaria (JC-489975F), 01 Sep 2008

Nb Sub Govind Singh Chahar (JC-490077P), 11 Jul 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Chander Bhan (JC-489843N), 01 Oct 2008

Nb Sub Puran Singh (JC-489874N), 01 Oct 2008

Nb Sub Jaldeep Singh (JC-489877F), 09 Dec 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Baga Ram (JC-489880F), 01 Oct 2008

Nb Sub Bijender Singh (JC-489882M), 15 Jan 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Lal Chand (JC-489917X), 01 Oct 2008

Nb Sub Prahlad Ram Jat (JC-489971L), 01 Oct 2008

Nb Sub Ramesh Chand (JC-489901M), 01 Oct 2008

Nb Sub Ram Avtar Jat (JC-489940L), 01 Oct 2008

Nb Sub Jawahar Lal Jat (JC-489909Y), 01 Oct 2008

Nb Sub Ram Shankar (JC-489925W), 21 Nov 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kamal Singh (JC-489913F), 01 Oct 2008

Nb Sub Prem Pal Singh (JC-489958F), 13 Oct 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dharam Veer (JC-489961F), 03 Oct 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kailash Chander (JC-490010W), 01 Oct 2008

Nb Sub Bharat Singh (JC-490104N), 11 May 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 12 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mehar Chand Kharwas (JC-489919H), 01 Nov 2008

Nb Sub Mahavir Prasad (JC-489924N), 20 Jan 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Lekh Raj (JC-489929M), 11 Jan 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sri Pal Singh (JC-489930F), 11 Jan 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Chaina Ram (JC-490121N), 24 Jul 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Hema Ram Bhakar (JC-490122W), 24 Jul 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ram Narayan Mahala (JC-490135N), 14 Aug 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mangi Lal (JC-489879M), 01 Dec 2008

Nb Sub Bhanwara Ram (JC-489895K), 01 Dec 2008

Nb Sub Chandra Vir Singh (JC-489938N), 17 Jan 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Satyaveer Singh (JC-489944F), 14 Apr 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Satyapal Singh (JC-489931K), 11 Jan 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ramesh Chand (JC-489942W), 23 Mar 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 02 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Yudhvair (JC-489935A), 02 Dec 2008

Nb Sub Sheesh Ram Lochib (JC-489920X), 19 Dec 2008

Nb Sub Khem Chand Verma (JC-489954L), 19 Dec 2008

To be Sub (Musn)

Nb Sub (Musn) Ramesh Singh (JC-489607M), 22 Oct 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

## THE MARATHA LI

To be Nb Sub

Hav Desai Dattatray Tukaram (No. 2784762P now JC-460059X), 08 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Bajad Ukanda Ashru (No. 2783593M now JC-460060M), 25 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Mohan Shastri (No. 2785352L now JC-460061P), 04 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 23 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Pradeep Misal (No. 2786885A now JC-460062X), 08 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 May 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Dhamnekar Madhu Bharmana (No. 2785329X now JC-460063A), 21 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 May 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Prakash Nagare (No. 2785393P now JC-460064H), 08 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 May 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Shrishailappa Badiger (No. 2785023P now JC-460065L), 21 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 07 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Patil Tanaji Ramu (No. 2784592W now JC-460068Y), 01 Aug 2009

Hav Salim S (No. 2788103X now JC-460069F), 06 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Nikam Dattatray Jonardhan (No. 2791855M now JC-460070W), 10 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Patil Hanamant Sopan (No. 2783243A now JC-460066N), 02 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk) Delvadia Ashvinkumar Keshavaji (No. 2783279Y now JC-460067W), 01 Aug 2009



## THE KUMAON REGIMENT

## To be Nb Sub

Hav Chandan Singh (No. 4183412L now JC-540631N),  
25 Jun 2009/01 May 2009\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 May 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Pushkar Singh (No. 4181233M now JC-540632W),  
19 Jun 2009/01 May 2009\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 May 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Indra Singh Visht (No. 4181807N now JC-540633Y),  
01 Jul 2009

Hav Raj Kumar (No. 4182375W now JC-540634F), 01 Jul  
2009

Hav Shiv Singh (No. 4180073L now JC-540635K), 01 Jul  
2009

Hav Bhairab Ram (No. 4182078H now JC-540636M),  
06 Jul 2009/01 Jul 2009\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Laxman Ram (No. 4182185K now JC-540637P), 06 Jul  
2009/01 Jul 2009\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Gopal Singh (No. 4181452N now JC-540638X), 26 Jul  
2009/01 Jun 2009\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Ganesh Datt Pandey (No. 4181806L now JC-540639A),  
30 Jul 2009/01 Jul 2009\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Rajendra Prasad Pandey (No. 4181845K now JC-  
540640P), 30 Jul 2009/01 Jul 2009\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Subhash Chand (No. 4181706A now JC-540641X),  
01 Aug 2009

Hav Puran Singh (No. 4179706F now JC-540642A),  
01 Aug 2009

Hav Rakesh Singh (No. 4180997Y now JC-540643H),  
10 Aug 2009/01 Aug 2009\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

11—84 GI/2010

Hav Bhagwan Singh (No. 4178564H now JC-540644L),  
21 Aug 2009/01 Sep 2008\*

\*(Granted Notional seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Harish Chandra Oli (No. 4181804A now JC-540645N),  
22 Aug 2009/01 Aug 2009\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Mohan Singh (No. 4181190H now JC-540646W),  
01 Sep 2009/01 Jun 2008\*

\*(Granted Notional seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Lakhan Singh Yadav (No. 4182429M now JC-  
540647Y), 01 Sep 2009

Hav Kamlesh Kumar (No. 4182430F now JC-540648F),  
01 Sep 2009

Hav Bijay Singh (No. 4179792X now JC-540649K), 01 Sep  
2009

Hav Lalit Mohan Singh (No. 4180211F now JC-540650Y),  
01 Sep 2009

Hav Uttam Singh Chauhan (No. 4180806Y now JC-  
540651F), 01 Sep 2009/01 Jul 2009\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Kishan (No. 2883842P now JC-540652L), 01 Sep  
2009

## THE NAGA REGIMENT

Hav Shyam Singh (No. 14701859N now JC-590234L),  
26 Jul 2009/01 Jul 2009\*

Hav Khushman Gurung, Vrc (No. 14701938H now JC-  
590235N), 26 Jul 2009/01 Jul 2009\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

## THE DOGRA REGIMENT

## To be Nb Sub

Hav Gian Chand (No. 3986870X now JC-521040X), 08 Sep  
2009+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Apr  
2009 without effect on pay and allowances)

Hav Vijay Kumar (No. 3987441H now JC-521041A),  
03 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 04 May  
2009 without effect on pay and allowances)

Hav Davinder Singh (No. 3989341W now JC-521042H),  
27 Jun 2009+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 May  
2009 without effect on pay and allowances)

Hav Tulsi Dass (No. 3988171L now JC-521043L), 03 Aug 2009+  
 +(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 May 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Kuldip Kumar (No. 3987236F now JC-521044N), 10 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 31 May 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Vir Chand (No. 3988183A now JC-521045W), 03 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Keshav Ram (No. 3989408K now JC-521046Y), 27 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Dine Ram (No. 3988715P now JC-521047F), 15 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Swaran Singh (No. 3988475H now JC-521048K), 20 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Rakesh Kumar (No. 3391760P now JC-521049M), 28 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Sahib Singh (No. 3988553P now JC-521050F), 26 Aug 2009+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Wattan Singh (No. 3989277K now JC-521051K), 01 Sep 2009

Hav Manohar Lal (No. 3986967H now JC-521052M), 09 Sep 2009+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

#### THE JAT REGIMENT

##### To be Nb Sub

Hav Kartar Chand (JC-3180805A), 25 Sep 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Sanjay Kumar (JC-3183142L), 03 Sep 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Jeth Mal Jat (JC-2594504Y), 26 Sep 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Amar Nath (JC-3181261H), 05 Sep 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

#### THE SIKH REGIMENT

##### To be Nb Sub

Hav Bhupinder Singh (No. 3391840M now JC-500163W), 13 Aug 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 29 May 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Manjinder Singh (No. 3390047L now JC-500164Y), 11 Aug 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Gurjant Singh (No. 3388827X now JC-500165F), 13 Sep 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Sukhdev Singh (No. 3392425X now JC-500166K), 11 Sep 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Darya Singh (No. 3392421F now JC-500167M), 04 Aug 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

##### To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Suresh Kumar (No. 15359478A now JC-500168P), 01 Sep 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk) Kale Dattatray Vitthalrao (No. 3390398A now JC-500169X), 23 Sep 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

#### THE PARACHUTE REGIMENT

##### To be Nb Sub

Hav Bhupendra Singh (No. 13616617X now JC-413392L), 25 Jul 2009\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay and allowances wef 28 Jun 2009)

Hav Shiv Datt Sharma (No. 13617380Y now JC-413393N), 04 Jun 2009\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay and allowances wef 25 Jul 2009)

Hav Gagan Singh (No. 13617613N now JC-413394W),  
25 Jul 2009\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay and allowances wef 04 Jun 2009)

Hav Dayal Singh (No. 13618872H now JC-413395Y),  
25 Jul 2009\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay and allowances wef 28 Jun 2009)

Hav Patil Madhukar Pundlik (No. 2788684A now JC-413396F), 12 Aug 2009\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2009)

Hav Uttam Singh (No. 4073245X now JC-413397K), 01 Jul 2009

Hav Jasvir Singh (No. 13617671X now JC-413398M),  
30 May 2009

Hav Mukut Bhan Singh (No. 2884034K now JC-413399P),  
18 Jun 2009\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay and allowances wef 05 Jun 2009)

Hav Prema Ram Meghwal (No. 13617541F now JC-413400Y), 01 Jun 2009

Hav Bohar Singh (No. 13618507F now JC-413401F),  
30 May 2009

Hav Kamala Kanta Panda (No. 13618663L now JC-413402K), 01 Aug 2009

Hav Dharma Pal (No. 13618659H now JC-413403M),  
01 Sep 2009

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Devender (No. 13691779K now JC-413404P),  
01 Sep 2009

#### THE BIHAR REGIMENT

To be Nb Sub (GD)

Hav Lapsa Majhi (No. 4270095L now JC-560213A),  
12 Sep 2009/17 Jan 2009(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
17 Jan 2009 without effect on pay and allces)

Hav Ananda Kumar Sarangi (No. 4269139L now JC-560214H), 01 Sep 2009/20 May 2009(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
20 May 2009 without effect on pay and allces)

Hav Dasharath Singh (No. 4267998X now JC-560215L),  
12 Sep 2009/01 Jun 2009(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 Jun 2009 without effect on pay and allces)

Hav Neela Madhab Pradhan (No. 4270014A now JC-560216N), 13 Sep 2009/01 Jul 2009(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 Jul 2009 without effect on pay and allces)

Hav Sangram Singh (No. 4265990M now JC-560217W),  
08 Sep 2009/01 Sep 2009(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 Sep 2009 without effect on pay and allces)

Hav Kerketta Fuljenes (No. 4267553L now JC-560206K),  
01 Sep 2009/20 May 2009(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
20 May 2009 without effect on pay and allces)

Hav Somra Kujur (No. 4268874P now JC-560207M),  
01 Sep 2009/20 May 2009(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
20 May 2009 without effect on pay and allces)

Hav Niranjan Rana (No. 4269065F now JC-560208P),  
01 Sep 2009/20 May 2009(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
20 May 2009 without effect on pay and allces)

Hav Kohale Jageshwar Harish Chandra (No. 4268178X  
now JC-560209X), 01 Sep 2009/20 May 2009(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
20 May 2009 without effect on pay and allces)

Hav Kulamani Bag (No. 4268947W now JC-560210M),  
01 Sep 2009/01 Jul 2009(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 Jul 2009 without effect on pay and allces)

Hav/Clk Rana Dindayal Singh (No. 15359806H now JC-560211P), 01 Sep 2009

Hav/Clk Ram Kumar Mor (No. 4267755M now JC-560212X), 01 Sep 2009

#### THE GRENADIERS

To be Nb Sub

Hav Vijay Singh Rana (No. 2680921P now JC-450753W),  
01 Jan 2009

Hav Rajesh Kumar (No. 2685377H now JC-450754Y),  
17 May 2009

(Gtd seniority wef 28 Feb 2009 without effect on pay and allces)

Hav Sagar Khan (No. 2681343X now JC-450755F), 01 Mar 2009

Hav Joginder Kumar (No. 2680541W now JC-450756K),  
23 Mar 2009

Hav Abhay Singh (No. 2682451N now JC-450757M),  
04 Apr 2009

Hav Shokat Ali Khan (No. 2681412H now JC-450758P),  
05 Apr 2009

Hav Madan Singh (No. 2682581W now JC-450759X),  
09 May 2009

Hav Naresh Kumar (No. 2680693X now JC-450760M),  
16 May 2009

Hav Om Prakash (No. 2683981P now JC-450761P), 01 Jun  
2009

Hav Kashmir Singh Thakur (No. 2681027Y now JC-  
450762X), 01 Jun 2009

Hav Kartar Singh (No. 2681475L now JC-450763A),  
07 Jun 2009

Hav Nand Lal (No. 2680958W now JC-450764H), 01 Jul  
2009

Hav Randheer Singh Thakan (No. 2681067A now JC-  
450765L), 01 Jul 2009

Hav Satpal Singh (No. 2681237Y now JC-450766N), 01 Jul  
2009

Hav Pehap Singh Rathore (No. 2679637M now JC-  
450767W), 23 Jul 2009

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Nirmal Singh (No. 2683460F now JC-450768Y),  
01 Aug 2009

Hav/Clk Enamul Haque (No. 2683475K now JC-450769F),  
01 Aug 2008

To be Nb Sub (Musician)

Hav (Musician) Nawab Khan (No. 2685340F now JC-  
450751L), 29 Dec 2008

#### THE PUNJAB REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Subhash Chand (No. 2479607L now JC-430593A),  
01 Sep 2009

(Gtd ante date seniority wef 28 Jul 2009 without effect on  
pay and allces)

Hav Romesh Lal (No. 2479981N now JC-430594H), 24 Sep  
2009

(Gtd ante date seniority wef 14 Aug 2009 without effect  
on pay and allces)

Hav Balwinder Singh (No. 2479364L now JC-430595L),  
01 Sep 2009

Hav Ishwar Singh (No. 2479608N now JC-430596N),  
20 Sep 2009

(Gtd ante date seniority wef 01 Sep 2009 without effect on  
pay and allces)

Hav Paramjit Singh (No. 2480046N now JC-430597W),  
25 Sep 2009

(Gtd ante date seniority wef 01 Sep 2009 without effect on  
pay and allces)

Hav Pawitar Singh (No. 2479161F now JC-430598Y),  
04 Sep 2009

(Gtd ante date seniority wef 01 Sep 2009 without effect on  
pay and allces)

Hav Sunder Lal Bhatt (No. 2481258L now JC-430599F),  
01 Sep 2009

Hav Kuldeep Kumar (No. 2479609W now JC-430589X),  
04 Sep 2009

(Gtd ante date seniority wef 01 Jun 2009 without effect on  
pay and allces)

Hav Dhandev Singh (No. 2480629W now JC-430590M),  
17 Aug 2009

(Gtd ante date seniority wef 01 Aug 2009 without effect  
on pay and allces)

Hav Gulbag Singh (No. 2479923K now JC-430591P),  
01 Sep 2009

Hav Balwinder Singh (No. 2481665N now JC-430592X),  
05 Sep 2009

(Gtd ante date seniority wef 01 Sep 2009 without effect on  
pay and allces)

Hav Baljinder Singh (No. 2479741W now JC-430568F),  
27 May 2009

(Gtd ante date seniority wef 01 Mar 2009 without effect  
on pay and allces)

Hav Sukhdev Singh (No. 2480247M now JC-430586K),  
03 Aug 2009

(Gtd ante date seniority wef 01 Apr 2009 without effect on  
pay and allces)

Hav Naresh Chand (No. 2477046H now JC-430587M),  
14 Jul 2009

(Gtd ante date seniority wef 01 Jun 2009 without effect on  
pay and allces)

Hav Nirmal Singh (No. 2480172A now JC-430588P), 01 Jul  
2009

Hav Prem Singh (No. 2480634F now JC-430584Y), 30 Jul  
2009

(Gtd ante date seniority wef 01 Jul 2009 without effect on  
pay and allces)

Hav Chaman Lal (No. 2480645N now JC-430585F), 30 Jul  
2009

(Gtd ante date seniority wef 01 Jul 2009 without effect on  
pay and allces)

## THE RAJPUTANA RIFLES

To be Nb Sub

Hav Bhanwar Singh (No. 2885588P now JC-470508P),  
10 Jul 2009/01 Mar 2009&

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar  
2009 without effect on pay & allces)

Hav Updesh Singh Tomar (No. 2887425A now JC-  
470509X), 12 Aug 2009/01 Apr 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr  
2009 without effect on pay & allces)&

Hav Doongar Singh (No. 2885833M now JC-470510M),  
10 Jul 2009/01 Apr 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr  
2009 without effect on pay & allces)

Hav/Clk Jitender Singh (No. 2882919A now JC-470511P),  
01 May 2009

Hav/Clk Rajvir Singh (No. 2882940H now JC-470512X),  
01 May 2009

Hav/Clk Narendra Singh (No. 2882997X now JC-470513A),  
01 May 2009

Hav/Clk Mahendra Singh Tanwar (No. 2883006L now JC-  
470514H), 01 May 2009

Hav/Clk Ghasi Ram (No. 2883633X now JC-470515L),  
10 Jun 2009/01 May 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May  
2009 without effect on pay & allces)

Hav Rohitashav Boran (No. 2880814X now JC-470516N),  
24 Jun 2009/01 May 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May  
2009 without effect on pay & allces)

Hav Rajinder Singh (No. 2883434K now JC-470517W),  
01 May 2009&

Hav Nemi Chand (No. 2883517P now JC-470518Y),  
12 Aug 2009/01 May 2009&

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May  
2009 without effect on pay & allces)

Hav Harendra Singh (No. 2887626Y now JC-470519F),  
17 May 2009/01 May 2009&

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May  
2009 without effect on pay & allces)

Hav Mohammed Islam (No. 2884439P now JC-470520W),  
07 May 2009/01 May 2009&

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May  
2009 without effect on pay & allces)

Hav Vinod Singh, SM (No. 2883024N now JC-470521Y),  
15 Aug 2009/01 May 2009&

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May  
2009 without effect on pay & allces)

Hav Pawan Singh (No. 2888148M now JC-470522F),  
04 May 2009/01 May 2009&

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May  
2009 without effect on pay & allces)

Hav Hans Raj (No. 2884407M now JC-470523K), 04 May  
2009/01 May 2009&

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May  
2009 without effect on pay & allces)

Hav Devi Singh (No. 2885729Y now JC-470524M),  
01 May 2009

Hav Bhanwar Singh Rajput (No. 2885326Y now JC-  
470525P), 01 May 2009

Hav Bheekh Singh Inda (No. 2885452L now JC-470526X),  
29 Jun 2009/17 May 2009&

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 17 May  
2009 without effect on pay & allces)

Hav/Clk Subash Chandra (No. 2883755F now JC-470527A),  
01 Jun 2009

Hav/Clk Shambhu Kumar Singh (No. 2884733P now JC-  
470528H), 01 Jun 2009

Hav/Clk Angad Prasad (No. 2882909W now JC-470529L),  
01 Jun 2009

Hav Kanwar Pal Singh Tanwar (No. 2885691A now JC-  
470530A), 01 Jun 2009

Hav Manohar Singh Rajawat (No. 2884636X now JC-  
470531H), 22 Jun 2009/01 Jun 2009&

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun  
2009 without effect on pay & allces)

Hav Vikram Singh (No. 2885859F now JC-470532L),  
19 Jun 2009/01 Jun 2009&

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun  
2009 without effect on pay & allces)

Hav Balwant Singh (No. 2883448K now JC-470533N),  
12 Jun 2009/02 Jun 2009&

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Jun  
2009 without effect on pay & allces)

Hav Veer Singh (No. 2883314L now JC-470534W), 21 Jul  
2009/25 Jun 2009&

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Jun  
2009 without effect on pay & allces)

Hav Raja Ram Singh (No. 2884667X now JC-470535Y),  
21 Jul 2009/30 Jun 2009&

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Jun  
2009 without effect on pay & allces)

## THE MAHAR REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Jaya Krishna Sahoo (No. 4559710W now JC-570338L),  
02 Dec 2008

Hav Chavan Ramchandra Pandurang (No. 4559575N now  
JC-570339N), 07 Mar 2009@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances  
wef 01 Jan 2009)

Hav Amil Husain (No. 4560585K now JC-570340H), 01 Jan 2009

Hav Jaspal Singh (No. 4560007P now JC-570341L),  
25 Mar 2009#

#(Granted seniority without effect on pay and allowances  
wef 04 Jan 2009)

Hav Ravindra Singh (No. 4560088A now JC-570342N),  
25 Mar 2009\$

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances  
wef 07 Jan 2009)

Hav/Clk (SD) R Sathyavasagam (No. 4558480F now JC-  
570343W), 01 May 2009%

Hav/Clk (SD) Shashi Shekhar Pandey (No. 4558536H now  
JC-570344Y), 02 May 2009%

%(Granted seniority without effect on pay and allowances  
wef 01 Feb 2009)

Hav/Clk (SD) Atarul Haque Mandal (No. 4558545K now  
JC-570345F), 13 May 2009^

^(Granted seniority without effect on pay and allowances  
wef 01 Mar 2009)

Hav Virendra Singh (No. 4560734M now JC-570346K),  
10 Oct 2008&

Hav Subhash Chand Yadav (No. 4560799A now JC-  
570347M), 10 Oct 2008&

&(Granted seniority without effect on pay and allowances  
wef 01 Oct 2008)

Hav Londhe Prakash Shivaram (No. 4559162K now JC-  
570348P), 14 Jan 2009\*

\*(Granted seniority without effect on pay and allowances  
wef 31 Oct 2008)

Hav Pawar Suresh Chintaman (No. 4559463N now JC-  
570349X), 20 Jan 2009+

+(Granted seniority without effect on pay and allowances  
wef 01 Nov 2008)

Hav Mrinmoy Kumar Paul (No. 4560076L now JC-  
570350M), 12 Jan 2009=

Hav Bijay Kumar Rautroy (No. 4558946Y now JC-  
570351P), 12 Jan 2009=

Hav Bharat Singh Bisht (No. 4560833P now JC-570352X),  
10 Feb 2009=

=(Granted seniority without effect on pay and allowances  
wef 01 Dec 2008)

Hav Rathava Dinesh Bhai Bucha Bhai (No. 4559435F  
now JC-570353A), 20 Jan 2009<

<(Granted seniority without effect on pay and allowances  
wef 01 Jan 2009)

Hav Kushal Singh (No. 4560571K now JC-570354H),  
01 Jan 2009

Hav Lalji Singh (No. 4560158N now JC-570355L), 21 Feb  
2009>

Hav Kana Ram (No. 4560173H now JC-570356N),  
05 Mar 2009>

>(Granted seniority without effect on pay and allowances  
wef 08 Jan 2009)

Hav Munishpal Singh (No. 4560292Y now JC-570357W),  
21 Feb 2009?

?(Granted seniority without effect on pay and allowances  
wef 24 Jan 2009)

Hav Raj Kumar Yadav (No. 4561237P now JC-570358Y),  
19 Feb 2009X

X(Granted seniority without effect on pay and allowances  
wef 01 Feb 2009)

Hav Kamble Mohan Shankar Rao (No. 4558640W now  
JC-570359F), 28 Mar 2009@@

Hav Dewendra Kumar Singh (No. 4561253M now JC-  
570360W), 02 Mar 2009@@

Hav Partap Singh (No. 4560177Y now JC-570361Y),  
28 Mar 2009@@

Hav Surendra Singh (No. 4560198P now JC-570362F),  
28 Mar 2009@@

Hav Rajpal Singh Malik (No. 4560295M now JC-570363K),  
23 Mar 2009@@

@@(Granted seniority without effect on pay and  
allowances wef 01 Mar 2009)

Hav Dhananjay Singh (No. 4560268H now JC-570364M),  
23 Mar 2009

Hav Kuldip Singh (No. 4560410F now JC-570365P),  
23 Mar 2009

Hav Yogendra Singh Bisht (No. 4559203H now JC-  
570366X), 23 Mar 2009

Hav Satya Narayan Singh (No. 4559238Y now JC-  
570367A), 01 Apr 2009

Hav Govind Singh Manral (No. 4562000K now JC-  
570368H), 13 May 2009##

##(Granted seniority without effect on pay and allowances  
wef 01 Jan 2009)

Hav/Clk (SD) Shailendra Singh Rawat (No. 4559016K now JC-570369L), 16 May 2009\$\$

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Mar 2009)

Hav/Clk (SD) Pawase Vilas Khande Rao (No. 15359514A now JC-570370A), 20 May 2009%%

%(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Apr 2009)

Hav Gopal Lal Jat (No. 4561516A now JC-570371H), 18 Apr 2009^^

Hav Suraj Mal Jat (No. 4561525F now JC-570372L), 29 Apr 2009^^

^(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 08 Sep 2008)

Hav Lokhande Satendra Shankar (No. 4559763P now JC-570373N), 09 Apr 2009&&

&&(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2008)

Hav Shamsher Bahadur Singh (No. 4561606F now JC-570374W), 05 Jun 2009\*\*

\*(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Dec 2008)

Hav Jang Bahadur Ram (No. 8032605M now JC-570375Y), 10 Jan 2009

Hav Shyamal Kumar Mandal (No. 4560829M now JC-570376F), 29 Mar 2009++

++(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2009)

Hav Kedar Raju Balbhim (No. 4560648F now JC-570377K), 14 May 2009=

Hav Achinta Kumar Mandal (No. 4561051L now JC-570378M), 29 Mar 2009=

=(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Mar 2009)

Hav Man Singh (No. 4560053K now JC-570379P), 09 Apr 2009<<

<<(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 12 Mar 2009)

Hav Keshav Deo (No. 4560092H now JC-570380K), 13 May 2009>>

>>(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 21 Mar 2009)

Hav Vijay Singh (No. 4560101Y now JC-570381M), 13 May 2009??

?(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 31 Mar 2009)

Hav Sonawane Walmik Bhavsing (No. 4561123K now JC-570382P), 14 May 2009£

£(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Apr 2009)

Hav Clk (SD) Nikam Daga Daulat (No. 15359532H now JC-570383X), 01 Jul 2009

Hav Dupate Sharad Bhanudas (No. 4559006A now JC-570384A), 18 Jul 2009F

F(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Apr 2008)

Hav Kamble Madhav Pandurang (No. 4559343P now JC-570385H), 29 Apr 2009E

E(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2008)

Hav Sawant Phule Kantilal Jogu (No. 4559672L now JC-570386L), 12 Jul 2009†

†(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 11 Jan 2009)

Hav Laxman Giri (No. 4560204X now JC-570387N), 16 Mar 2009††

††(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2009)

Hav Rishi Ram (No. 4560091A now JC-570388W), 29 Jun 2009Ω

Ω(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 25 Mar 2009)

Hav Aughe Shashikant Bhagwan (No. 4558351F now JC-570389Y), 27 Jul 2009££

££(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Apr 2009)

Hav Lal Singh Verma (No. 4555425A now JC-570390N), 23 Jun 2009F

F(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 30 Apr 2009)

Hav Chavan Kisan Shivaram (No. 4560821A now JC-570391W), 27 Jul 2009E

E(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2009)

Hav Harminder Singh (No. 4560306N now JC-570392Y), 01 Jun 2009

Hav Om Prakash (No. 4559316L now JC-570393F), 20 Jun 2009††

††(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 03 Jun 2009)

Hav Manwar Hari Arjun (No. 4561146L now JC-570394K), 27 Jul 2009‡

‡(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2009)

## JAK RIF

## To be Subs Nb Sub (GD)

Hav Surinder Kumar (No. 13754320P now JC-580987K),  
13 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 02 Jul 2009)

Hav Ashok Kumar (No. 13752266N now JC-580988M),  
10 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 16 Jul 2009)

Hav Nar Bahadur (No. 13750883X now JC-580989P),  
12 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Aug 2009)

Hav Vazeer Singh (No. 13752148A now JC-580990K),  
15 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Aug 2009)

Hav Raj Kumar (No. 13751194H now JC-580991M),  
03 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Aug 2009)

Hav Manohar Lal (No. 13750881M now JC-580992P),  
10 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Aug 2009)

Hav Ashok Kumar Verma (No. 13751100A now JC-  
580993X), 19 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Aug 2009)

Hav Rajender Singh Rana (No. 13750939Y now JC-  
580994A), 03 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Sep 2009)

Hav Jai Prakash Thakur (No. 13751337X now JC-580995H),  
03 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Sep 2009)

Hav Abdul Hassan Ansari (No. 13751838X now JC-  
580996L), 01 Sep 2009

## ARMD CORPS RECORDS

## To be Nb Ris

DFR (DVR/OPR) Mohan Singh Dhami (No. 1088068X  
now JC-243855A), 11 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec  
2008 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/OPR) Avtar Singh (No. 1083369X now JC-  
243610K), 10 May 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May  
2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/GNR) Om Prakash Singh (No. 1088288F now  
JC-243857L), 09 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 14 Jul 2009  
without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/GNR) Survijaya Pratap Singh (No. 15461577W  
now JC-243848K), 31 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep  
2009 without effect on pay and allowances)

DFR (GNR/OPR) Nawab Singh Bharangar (No. 1087691F  
now JC-243864F), 03 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct  
2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/OPR) Manoj Kumar Singh (No. 1087934F now  
JC-243870P), 27 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct  
2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/GNR) Niroj Kumar Singh (No. 1087964Y now  
JC-243852M), 08 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct  
2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/GNR) Shiv Mohan (No. 1088082K now JC-  
243871X), 27 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct  
2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/GNR) Sohan Lal (No. 1088105A now JC-  
243878F), 06 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct  
2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/OPR) Sudarshan Singh Yadav (No. 1088163K  
now JC-243853P), 08 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct  
2009 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/DVR) Padam Bir (No. 1088293M now JC-  
243854X), 08 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct  
2009 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/GNR) Radhey Shyam (No. 1088484F now JC-  
243862W), 30 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct  
2009 without effect on pay and allowances)



DFR (DVR/OPR) Krishan Kumar (No. 1089071K now JC-243863Y), 29 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (GMR/DVR) Rajesh Kumar Singh (No. 1089155X now JC-243880Y), 06 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (GMR/DVR) Gopal Singh Yadav (No. 1089251M now JC-243879K), 06 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (SHC) Sanjay Gundu Gavi (No. 1089273L now JC-243812L), 02 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (GMR/DVR) Sanjith Puthen Parayil (No. 1089659L now JC-243882K), 06 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (GMR/DVR) Anandan R (No. 1089833M now JC-243883M), 06 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/GMR) Sambhu Sarkar (No. 1089932P now JC-243884P), 11 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/GMR) Madan Pal (No. 1098973A now JC-243885X), 06 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/GMR) Naresh Kumar (No. 1099452Y now JC-243886A), 11 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/GMR) Surendra Singh (No. 15461019P now JC-243888L), 06 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/GMR) Joginder Singh (No. 15461203A now JC-243846Y), 12 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/DVR) Rajveer Singh (No. 15461302H now JC-243889N), 06 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/GMR) Kamal Kant (No. 15461648M now JC-243866M), 09 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/GMR) Shyamvir (No. 15461789F now JC-243867P), 09 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/DVR) Mukesh Singh (No. 15461876P now JC-243868X), 09 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/GMR) Dalbir (No. 15462226N now JC-243869A), 09 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/GMR) Rajesh S (No. 15461613W now JC-243901K), 06 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/OPR) Raj Pal Singh (No. 15462264K now JC-243902M), 06 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/OPR) V Benedict (No. 1099151P now JC-243856H), 02 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/OPR) Gurpreet Singh (No. 15462424Y now JC-243859W), 12 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/GMR) Sukhdev Singh Athwal (No. 15462584Y now JC-243858N), 03 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/GMR) Santosh Kumar Singh (No. 1088996N now JC-243860L), 31 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (GMR/DVR) Ram Narain Ram (No. 1086442W now JC-243796Y), 09 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/OPR) Tejvir Singh (No. 1087395W now JC-243850F), 14 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (GNR/OPR) Gunjal Sunil Khandu (No. 1087618H now JC-243797F), 09 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/DVR) Rajbir (No. 1088146K now JC-243897M), 17 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/DVR) Chandra Pal Singh (No. 1089154P now JC-243798K), 09 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (GNR/DVR) G Joseph Lawrence (No. 1089172X now JC-243872A), 31 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/OPR) Ranjeet Singh Rathore (No. 1089183K now JC-243799M), 09 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/OPR) Devendra Kumar Singh (No. 1089276Y now JC-243800W), 09 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (GNR/OPR) Nanda Ram Gurjar (No. 1089380M now JC-243874L), 11 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/GNR) Dharam Pal Saharan (No. 1089481A now JC-243875N), 31 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (GNR/OPR) Sat Pal Singh (No. 1098625Y now JC-243849M), 17 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/OPR) Sri Ram Pratap Singh (No. 1098965F now JC-243893W), 23 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/OPR) Gurang Ganesh Bahadur (No. 1099241W now JC-243876W), 02 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/OPR) Sanjayan Chambalon (No. 1099243F now JC-243877Y), 02 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/GNR) Laxmi Narayan (No. 15461590A now JC-243847F), 13 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/OPR) Angrej Singh (No. 2482296N now JC-243873H), 31 Oct 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/OPR) Pededa Dasaratha Rao (No. 15461537P now JC-243825H), 11 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 07 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/GNR) Subhash Chander (No. 15461451W now JC-243898P), 18 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 16 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/DVR) Balwant Singh (No. 1088377A now JC-243900F), 23 Nov 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

J ROY CHOWDHARY  
Under Secy

No. 276, dated 6th May 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

#### CORPS OF ENGINEERS

#### MADRAS ENGINEER GROUP

To be Subs Sub Maj Clks (SD)

Rank/Trade, Name, JC No. & Date of Substantive Promotion

Sub/Clk (SD) Varghese PT (JC-306511Y), 01 Jan 2008

Sub/Clk (SD) Suresh Kumar Awasthi (JC-306669F), 08 Dec 2008

Sub/Clk (SD) Daljit Singh (JC-306734W), 21 Nov 2008

Sub/Clk (SD) Hawa Singh (JC-306831N), 04 Oct 2008

Sub/Clk (SD) Mani P (JC-306833Y), 08 Nov 2008

Sub/Clk (SD) Anil Kumar AR (JC-306841X), 29 Dec 2008

Sub/Clk (SD) Devendra Singh Tomar (JC-306842A), 06 Oct 2008

Sub/Clk (SD) Rajaram Yadav (JC-306870M), 18 Nov 2008

Sub/Clk (SD) S David (JC-306896F), 15 Oct 2008

Sub/Clk (SD) S Ganesan (JC-306902K), 29 Dec 2008

Sub/Clk (SD) Bajrangbali Mishra (JC-306903M), 03 Nov 2008

Sub/Clk (SD) Suraj Bhan (JC-306904P), 01 Nov 2008  
 Sub/Clk (SD) G Elango (JC-306948M), 02 Dec 2008  
 Sub/Clk (SD) M Lingesan (JC-306972H), 03 Dec 2008  
 Sub/Clk (SD) Siyaram (JC-307011N), 20 Jan 2009  
 Sub/Clk (SD) Awdh Kishor Singh (JC-307039N), 13 Feb 2009  
 Sub/Clk (SD) Ramesh Chander C (JC-307081M), 08 Jun 2009  
 Sub/Clk (SD) Baby VA (JC-305880K), 10 Aug 2009  
 Sub/Clk (SD) MD Nazeer (JC-305893F), 23 Jun 2009  
 Sub/Clk (SD) Ramachandran KV (JC-306064A), 02 Jun 2009  
 Sub/Clk (SD) Sadanand RJ (JC-306074K), 08 Jun 2009  
 Sub/Clk (SD) Ramanna Prabhu (JC-306076P), 03 Jul 2009  
 Sub/Clk (SD) Mavaturu Nagaraja Rao (JC-306079H),  
 16 Sep 2009  
 Sub/Clk (SD) Jayachandran V (JC-306081A), 10 Aug 2009  
 Sub/Clk (SD) Poovaiah KN (JC-306149W), 01 Aug 2009  
 Sub/Clk (SD) Sarada Chandra Panigrahi (JC-306271M),  
 04 Aug 2009  
 Sub/Clk (SD) Aravindakshan PM (JC-306293L), 12 Aug 2009  
 Sub/Clk (SD) MC Palani (JC-306544K), 03 Oct 2009  
 Sub/Clk (SD) Satpal (JC-306898M), 05 Oct 2009  
 Sub/Clk (SD) Zende Balasaheb Appaji (JC-307147X),  
 26 Oct 2009

To be Subs Sub Maj (SKsT)

Rank/Trade, Name, JC No. & Date of Substantive  
 Promotion

Sub/SKT Bhan Singh (JC-305919L), 16 Nov 2009

To be Subs Sub Clks (SD/Store)

Rank/Trade, Name, JC No, Date of Substantive promotion

Nb Sub/Clk (SD) Gopinathan Pillai CK (JC-307520M),  
 01 Jan 2008

Nb Sub/Clk (SD) Ravi PS (JC-307718L), 01 Sep 2008

Nb Sub/Clk (SD) Mool Chand (JC-307753N), 16 Oct 2008

Nb Sub/Clk (SD) Netak Tanaji Babu Rao (JC-307756F),  
 01 Oct 2008

Nb Sub/Clk (SD) Pawar Shashikant Y (JC-307770N),  
 01 Oct 2008

Nb Sub/Clk (SD) Dinesh Thakur (JC-307772Y), 03 Nov 2008

Nb Sub/Clk (SD) Basant Ballabh (JC-307792M), 01 Oct 2008

Nb Sub/Clk (SD) Phool Singh (JC-307794X), 01 Oct 2008

Nb Sub/Clk (SD) Annathurai R (JC-307796H), 06 Nov 2008

Nb Sub/Clk (SD) Russel Raj PE (JC-307797L), 11 Oct 2008

Nb Sub/Clk (SD) Kachole Shivaji Girju (JC-307812P),  
 01 Nov 2008

Nb Sub/Clk (SD) Prabhakaran UM (JC-307813X), 01 Nov 2008

Nb Sub/Clk (SD) K Maruti Krishna (JC-307814A),  
 01 Nov 2008

Nb Sub/Clk (SD) Pramod Tarale (JC-307829H), 01 Dec 2008

Nb Sub/Clk (SD) Devendra Prasad (JC-307837F), 01 Dec 2008

Nb Sub/Clk (SD) Sudhir Babu MV (JC-307839M), 01 Dec 2008

Nb Sub/Clk (SD) Jai Krishna Mahto (JC-307841K),  
 01 Dec 2008

Nb Sub/Clk (SD) N Raghunadhan (JC-307484M), 18 Dec  
 2008

Nb Sub/Clk (SD) Nanga Pattabi Reddy (JC-307755Y),  
 31 Dec 2008

Nb Sub/Clk (SD) Ramayan Prasad (JC-307534M), 01 Jul 2009

Nb Sub/Clk (SD) Udai Bhan Yadwa (JC-307542L), 02 Feb 2009

Nb Sub/Clk (SD) Pratipal Singh Narwaria (JC-307595K),  
 02 Feb 2009

Nb Sub/Clk (SD) Ramdular Singh (JC-307754W), 09 Feb  
 2009

Nb Sub/Clk (Store) Fernandez Samson (JC-307846H),  
 02 Feb 2009

Nb Sub/Clk (SD) Kirubananda Variyar G (JC-307865N),  
 02 Feb 2009

Nb Sub/Clk (SD) Barendranath Bain (JC-308054P),  
 01 Apr 2009

Nb Sub/Clk (SD) Ashwani Kumar (JC-307843P), 01 Apr 2009

Nb Sub/Clk (SD) Achan Kunju T (JC-307877H), 12 May 2009

Nb Sub/Clk (SD) K Yadaiah (JC-307878L), 01 May 2009

Nb Sub/Clk (SD) Rama Rao K (JC-307880H), 01 May 2009

Nb Sub/Clk (SD) S Kailash Nivarutti (JC-307881L),  
 01 May 2009

Nb Sub/Clk (SD) Sunil K (JC-308055X), 01 Jun 2009

Nb Sub/Clk (SD) Samesh Chandra (JC-307883W), 09 Jul 2009

Nb Sub/Clk (SD) Binoy Jana (JC-307884Y), 01 Jul 2009

Nb Sub/Clk (SD) Bindeshwari Prasad Pandey (JC-  
 307885F), 03 Jul 2009

Nb Sub/Clk (SD) P Mohan Raj (JC-307879N), 03 Jul 2009

Nb Sub/Clk (SD) George CT (JC-307901N), 01 Jul 2009

Nb Sub/Clk (SD) Shivraj Singh (JC-307902W), 01 Jul 2009

Nb Sub/Clk (SD) Rakesh Chandra (JC-307903Y), 20 Aug 2009

Nb Sub/Clk (SD) Surendran VP (JC-307915N), 01 Aug 2009

Nb Sub/Clk (SD) Satish Kumar Sharma (JC-307916W),  
 17 Aug 2009

Nb Sub/Clk (SD) Satnam Singh (JC-307917Y), 01 Aug 2009

Nb Sub/Clk (SD) Sampat J Rao Mohan Rao (JC-307942X),  
 01 Aug 2009

Nb Sub/Clk (SD) Pericherianarayana Raju (JC-307943A),  
01 Sep 2009

Nb Sub/Clk (SD) Ajit Singh Yadav (JC-307944H), 01 Sep 2009

Nb Sub/Clk (SD) Sona Ram Gora (JC-307945L), 01 Sep 2009

Nb Sub/Clk (SD) Vasudevan T (JC-307961H), 01 Sep 2009

Nb Sub/Clk (SD) Sheo Shankar Mishra (JC-307947W),  
01 Sep 2009

To be Subs Sub (SKsT)

Rank/Trade, Name, JC No. & Date of Substantive  
Promotion

Nb Sub SKT Shivdyal (JC-307816L), 01 Jun 2009

Nb Sub SKT Nand Kishor Singh (JC-307866W), 01 Sep 2009

Nb Sub SKT M Pasulla Sharif (JC-307867Y), 15 Oct 2009

Nb Sub SKT Naresh Chand (JC-307912A), 01 Nov 2009

ALKA JOSHI  
Under Secy

#### ARMY BRANCH

No. 277, dated 7th May 2010—The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 10 Jan 2000 and to grant his permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

To be Capt

Abhijit Mukherjee (MS-13204L) (MR-07506F), AMC,  
12 May 1997.

With seniority for pay and promotion wef  
12 Nov 1996. (This includes 06 months of ante date of

seniority for Hopital Appointment which will count for pension not for gratuity).

(Ministry of Defence Notification published in the Gazette of India dated 06 Oct 2001 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

A S NARULA  
Maj  
Addl. DGAFMS (HR)  
Office of DGAFMS

#### ARMY BRANCH

No. 278, dated 7th May 2010—The President is pleased to make the promotion of the undermention AMC officer with effect from the date mentioned against him :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

Major to be Lt Col  
(CORRIGENDUM)

The date of promotion in respect of Abhijit Mukherjee (MR-07506F), AMC in the Gazette Notification published on 11 Apr 2009 is amended as follows :—

For : with effect from 12 May 2008.

Read : with effect from 12 Nov 2007.

Capt to be Major  
(CORRIGENDUM)

The date of promotion in respect of Abhijit Mukherjee (MR-07506F), AMC in the Gazette Notification published on 02 Feb 2002 is amended as follows :—

For : with effect from 12 May 2001.

Read : with effect from 12 Nov 2000.

A S NARULA  
Maj  
Addl DGAFMS (HR)  
Office of DGAFMS